



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 9, शनिवार शाके 1941 अगस्त 31, 2019
Bhadra 9, Saturday, Saka 1941 August 31, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 30, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8093.-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Corporation Jodhpur has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Corporation Jodhpur. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Government.

नगर निगम जोधपुर

प्रपत्र-'क'

वार्ड 1 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 12087	सीमा गोयलों की ढाणी से गोलसनी सरहद होते हुए, जैसलमेर रोड का उत्तरी भाग, मुख्य सडक से चलते हुए, काली बेरी, अम्बेडकर कॉलोनी, भूरी बेरी, हनुमानजी का बाडीया, रूपावतो बेरा होते हुए पुनः गोयलो की ढाणी तक सम्पूर्ण क्षेत्र
	क्षेत्र सोढो की ढाणी, गंढेरो की ढाणी, गोयलो की ढाणी, धर्मराम जी का बेरा, कालीबेरी, भूरी बेरी, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, खारीया बेरा, गंगाराम जी का बेरा, सोनारो का बेरा, जोगजी का बेरा, गुमानजी का बेरा, बेलदार बस्ती, अम्बेडकर कॉलोनी, गांधी नगर आवासीय कॉलोनी, साईधाम, अक्षरधाम, चौपट, रूपावतो का बेरा, छितर के नीचे कालीबेरी, सिंधियों का बास, भील बस्ती, नन्दलाव बेरा, कालीबेरी बगेची, मगजी की ढाणी, मोहनलाल सांखला का बेरा, हनुमानजी का बाडीया, सामा का बेरा, धोलकी साल, धडा बेरा। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड

<p>वार्ड 2 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10921</p>	<p>के क्षेत्र होंगे।</p> <p>सीमा</p> <p>बालसमन्द मुख्य सडक पर विधानसभा की सीमा से चौपड चौराहे तक का बांया भाग, चौपड चौराहे से सूरज बेरा शिवजी का मन्दिर से फिदुसर रेलवे लाईन होते हुए रेलवे लाईन के सहारेसहारे रेलवे क्रासिंग तक का बांया भाग - बैंक से सूरसागर मैन रोड होते हुए व्यापारियो का केनरा मौहल्ला तक का बांया भाग, व्यापारियो के मौहल्ले के मुख्य सडक से ब्रह्मकुण्ड से सतुजी माली से व्यास कॉलोनी को छोड़ते हुए विधानसभा की सीमा तक का बांया भाग का क्षेत्र।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>ऊटो की घाटी, बावरी बस्ती, लक्ष्मण घाटी, लौहार बस्ती, एमपीएस बिल्डिंग, हिंगलाज नगर, भुरटिया, मालियों का राजबाग, भैरू चौक, सुभाष चौक, बक्तोजी का बेरा, उपरी गली, हनुमान जी की साल, गौशाला, गर्ल्स स्कूल, आम्बो का बाग, व्यापारियो का मौहल्ला मस्जिद के आसपास का क्षेत्र-, लालगढ़ पहाडी, दाधीचगढ़, रामनन्द जी का आश्रम, भैसेश्वर माता का मन्दिर, उटों की घाटी, पानी की टंकी,। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 3 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11545</p>	<p>सीमा</p> <p>सूरसागर चौपड चौराहे से सूरजबेरा शिव मन्दिर से उपर चढकर फिदुसर रेलवे लाईन के सहारे चलते दांया भाग होते हुए क्रासिंगकेनरा बैंक का दांया भाग रेलवे क्रासिंग से शफी / पार्क .डी.बिल्डिंग तक का दांया भाग शफी बिल्डिंग से जे तक का दांया भाग, जेपार्क से मेघवाल श्मशान से .डी. कायलाना चौराहा का दांया भाग, कायलाना चौराहा से माचिया सफारी पार्क होते हुए नगर निगम सीमा तक जैसलमेर रोड चौपड चौराहे तक का दांया भाग।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>चौपड भील बस्ती -, रिलायन्स पेटोल पम्प, नयी भाकरी बास, मन्ना की बाडी, कुरैशी स्कूल, महाराणा प्रताप कॉलोनी,</p>

	<p>विजय कॉलोनी, सुरज बेरा, भोजावतो का बास, जालीया बेरा, कनावतो का बास, बिछला वास, गेंवा, एचपी पेटोल पम्प, बुंदीयाला बेरा, जय कॉलोनी, सूर्य कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, कुतो का बाडा, पनवाडी बेरा, पुरानी भाकरी बास, झमकू का जाव, फिलाबेरा, केवडाबेरा, सिराला बेरा, कडूश्वर महादेव पहाडी क्षेत्र, मुल्तानजी का चौक, कब्रिस्तान, रेडिया फांटा का क्षेत्र, सिंधियों की गली, नाथी का बाग, रूपावतो का बाग, पुरानी रकासानी, नई रकासानी।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 4 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11073</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>सूथला मुखय सडक से पुराना टेलिफोन ऑफिस से वन विभाग तक का दक्षिण भाग, वन विभाग होते हुए नगर निगम के सीमा के सहारेसहारे दक्षिण की तरफ चलकर - जैसलमेर बाइपास मुखय सडक से गुजराती कॉलेनी, तिलवाडिया फांटा का बांया भाग से मुडकर पुनः मुखय चौपासनी सडक से शाही बाग, सिद्धनाथ रोड से सूथला मुखय सडक तक का बाया पश्चिम भाग।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>ज्वाला विहार आंशिक भाग, पुराना सूथला, दाउ जी की पोल, ठाकुरजी का मन्दिर, फिरोज खां कॉलोनी, शिवनाथ नगर, शिक्षक कॉलोनी, प्रेमविहार, गुजराती कॉलोनी, तिलवाडिया फांटा, पठानकोट, हिंगलाज नगर।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 5 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10595</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>चौपासनी रोड स्थित भट्टी की बावड़ी के पास वाले तिराहा से मुखय रोड होते हुए तिलवाडिया फांटा का बांया भाग से जैसलमेर रोड से भादरवा बेरा नगर निगम की सीमा के सहारे सहारे तथा चौपासनी मन्दिर के आसका क्षेत्र से पास-होते हुए नगर निगम की सीमा के सहारे सहारे डाली बाई मंदिर के चौराहे के पास नगर निगम की सीमा तक के क्षेत्र से होते हुए मारवाड नगर की प्रथम गली डुंगरराम मेघवाल के घर के बाया भाग से होते हुए खेत के सहारे सहारे विजय नगर के शमशान रोड से होते हुए का बाया भाग से लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने से हरिओम नगर होते हुए एम्स रोड पर 17 ई को छोडते हुए भट्टी की बावड़ी जज्</p>

	<p>साहब वाली मुख्य सड़क से होते हुए भट्टी की बावड़ी तक का बाया भाग।</p>
	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>मोर्डन टाउन, भादरवा बेरा, राधाकृष्णपुरूम, बोम्बे आवासीय योजना, भट्टी की बावड़ी, हरिओम नगर, विजय नगर आशिक, महावीरपुरम, गोपाल बाड़ी, चौपासनी गांव, सुन्दर बालाजी कच्ची बस्ती, निराली ढाणी के पीछे सनसिटी जीम तक। पुरानी जवाई नहर के आसपास का क्षेत्र-, नाकौडा नगर, रामदेव नगर, मारवाड नगर। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 6 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10021</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>अण्दाराम चौराहे से हरिओम नगर की सीमा से पाल रोड तक का दक्षिणी भाग से पाल रोड के सहारे चलते हुए नगर निगम सीमा तक का पश्चिमी भाग तथा अण्दाराम चौराहे से पीएफ ऑफिस से नगर निगम की सीमा तक होते हुए सड़क के दोनो तरफ के सम्पूर्ण क्षेत्र सेक्टर 25 को लेते हुए</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>शंकर नगर, वैष्णव नगर, कुलदीप विहार, हरि नगर, यूकॉलोनी .टी.आई., वैशाली एवेन्यू, रूपनगर प्रथम, द्वितीय, रामकृष्ण नगर, विनायक नगर, मेघनगर, रूपनगर तृतीय, अरिहन्त नगर, आदिनाथ नगर, जानकी श्रीराम नगर, कृष्ण नगर, सूरजनगर, कच्ची बस्ती, विजय नगर आंशिक, पवन विहार, उर्जा नगर, श्याम नगर व सेक्टर 25। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 7 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9975</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>नहर चौराहा से होते हुए मुख्य पाल रोड से नगर निगम सीमा से सम्पूर्ण गायत्री नगर से मरुधर केसरी नगर, शोभावतो की ढाणी से डर्बी श्रमिक कॉलोनी से मेघवालो की ढाणी सम्पूर्ण क्षेत्र, कृष्णा धर्मकांटा से पुलिस थाना बासनी सांगरिया मुख्य से एम्स मुख्य सड़क से एम्स हास्पिटल के सामने से पचरंगा एवं श्री जी मैरेज पैलेस से होते हुए रिद्धी सिद्धी काम्पलैक्स होते हुए नहर चौराहा।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>गायत्री नगर, मरुधर केसरी नगर, शोभावतो की ढाणी</p>

	<p>खोडियार नगर, रतन नगर, वर्धमान नगर, मेघवालो की ढाणी, श्रमिक कॉलोनी, बिहारी बस्ती, जगदम्बा कॉलोनी, बासनी थाना पुलिस क्षेत्र, बासनी द्वितीय फेस का आंशिक भाग, भवानी नगर, जेनगर.के., रेलवे कॉलोनी, कुशल नगर, यूआईटी कर्मचारी कॉलोनी, पाल विस्तार नगर निगम सीमा (पूर्वी) तक गणपति नगर, पूनम नगर, अमृत विहार, मूरली नगर, महादेव नगर, चाणक्य नगर।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 8 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9022</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>सुभाष नगर मुख्य पाल रोड से आसोतरा मार्बल भैरव नाला से होते हुए नहर चौसे एम्स रोड दिग्विजय नगर सुभाष नगर विस्तार होते हुए एम्स हास्पिटल के पास से दाउजी ड से न्यू पावर हाउस के होटल होते हुए डिजल शेड रो पश्चिमी दिशा से काजरी रोड से कुकुंमदीप गार्डन से कृष्णा मारुति एजेन्सी होते हुए हडडी मील श्मशान से काजरी बाउण्डरी होते हुए प्रेम नगर से होते हुए जेफू खां के मकान का दांया भाग से होते हुए सुभाष नगर मुख्य सडक बीएसएनएल ऑफिस से मुख्य पाल रोड तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>खेमे का कुंआ, खेमे का कुंआ टंकी का मौहल्ला, प्रेमनगर, सुभाष विहार, गुलाब नगर, सुभाष नगर विस्तार का आंशिक भाग, दिग्विजय नगर, नन्दनवन ग्रीन, मेघवाल मौहल्ला, केशवनगर, एम्स हास्पिटल रोड, न्यू पावर हाउस, कुकुमदीप गार्डन, कृष्णा मारुति एजेन्सी, अम्बेडकर वूल मील, भगवान महावीर हडडीमील, जवाहर कॉलोनी, अम्बेडकर कॉलोनी, मुस्लिम बस्ती, भील बस्ती, हडडी मील श्मशान रोड काजरी बाउण्डरी तक।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 9 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10123</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>अपना घर आश्रम से शास्त्री नगर थाना मुख्य पाल रोड से चन्द्रशेखर महादेव मन्दिर से सुभाष नगर रोड होते हुए बीएसएनएल ऑफिस से जेफू खां जी के मकान के आगे बांया भाग से होते हुए प्रेमनगर होते हुए काजरी सीमा से उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ न्यू पावर हाउस से डीजल शेड से</p>

	<p>नवकार सोसाइटी फिदूसर रेलवे ट्रैक होते हुए शास्त्री नगर जीसेक्टर एकसटेशन से वापस अपनाघर आश्रम।-</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>मिल्कमेन कॉलोनी, जेफू खा के मकान के पास, पीएनटी कॉलोनी, सीबीआई कॉलोनी, काजरी, आईटीआई, सुभाष नगर, नवकार सोसायटी, जीएक्सटेशन-, पत्रकार कॉलोनी, हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, एल्फोबेक्स आदि। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 10 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9613</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>सेक्टर 23 के पास स्थित संदीप टाईल्स से बायी ओर चलते हुए पाल रोड स्थित नहर चौराहे पहुंचकर मुख्य पाल रोड के सहारे सहारे बायी ओर का भाग लेते हुए शास्त्रीनगर-थाने के सामने स्थित मुद्रित मेशन पहुंचकर पाल लिंक रोड पर चलते हुए बायी ओर का भाग लेते हुए कमला नेहरू नगर अस्पताल पहुंचकर इसकी नई बिल्डिंग को लेते हुए बायी ओर चलते हुए डॉवाली अरविन्द जैन के घर के सामने . सडक के सहारे चलते हुए राज अस्पताल के सामने पहुंचते हुए सेन्टल एकेडमी स्कूल के सामने सडक पर पहुंच कर निर्मल पेंन्टस के पास से होते हुए देव नगर सीमा के सहारे चलते हुए प्यारे मोहन चौराहे पहुंचकर अशोक नगर ए-148 पहुंचकर इसके सहारेबस्ती की सहारे राजीव गांधी कच्ची-दक्षिणी सीमा पर चल रही सीमेन्ट सडक सहारे चलते हुए प्यारे मोहन चौराहे से आने वाली सडक को क्रोस कर सिसोदिया गार्डन के सहारे जैन स्थानक अमर नगर पहुंचकर नाले के सहारेसहारे राज एन्कलेव कॉलोनी को लेते हुए - त एवं मुख्य सब्जी मण्डी सीएचबी रोड पहुंचकर प्राईवेट खे नगर निगम की भूमि की सीमा के सहारे चलते हुए सेक्टर 23 से संदीप टाईल्स तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>सेक्टर 23, कृष्णा नगर, सेक्टर 21ई, नरपत नगर, समन्वय नगर, अमृत नगर, टेक्टर एसोसिएशन, कान्ति नगर, अशोक नगर, अमर नगर, देव नगर, दुर्गा विहार, श्याम नगर, राज एन्कलेव, एवं इसके आस पास का क्षेत्र।-</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>

<p>वार्ड 11 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10176</p>	<p>सीमा</p> <p>नारकोटिक्स विभाग भवन से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड मुख्य सडक के कॉर्नर से होते हुए मुख्य चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सडक के सहारे चलते हुए श्रीनाथ ज्वैलर्स होते हुए 18/726 के मोड से नीलकंठ महादेव मन्दिर सहारे चलते हुए कृषि भूमि के कोर्नर 23 सेक्टर छोडकर पुनः नारकोटिक्स विभाग की सीमा तक मुख्य चौपासनी हाउसिंग बोर्ड रोड का दक्षिणी भाग</p>
<p>वार्ड 12 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9779</p>	<p>सीमा</p> <p>फलौदी समाज भवन के सामन होते हुए भट्टी की बावडी के सामने से होते हुए बट्टीपैलेस से एम्स रोड क्रोस बिन्दु तक का पूर्वी भाग से पार्षद सीमा माथुर के घर से होते हुए चांद विलास के सामने से विजय ज्यूस से सेक्टर 15 होते हुए सेटेलाईट अस्पताल से होते हुए मुख्य सडक चलते हुए पुनः फलौदी समाज भवन तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।</p>
<p>वार्ड 13 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10022</p>	<p>सीमा</p> <p>चौपासनी हाउसिंग बोर्ड मुख्य सडक स्थित गुप्ता एण्टरप्राईजेज से होते हुए 18/72 कृष्णा डेयरी होते हुए कृषि भूमि बाउण्डरी पार करते हुए सेक्टर 21 सब्जी मण्डी रोड से होते हुए 11 सेक्टर पार करते हुए नाले के सहारे श्री अस्पताल होते हुए मुख्य चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सडके सहारे दिलीप पान चलते हुए गुप्ता एण्टरप्राईजेज तक बोर्ड (हा.चौ) (मुख्य सडक का दक्षिणी भाग)</p> <p>क्षेत्र</p> <p>राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 11, 12, 14, 18 का आंशिक</p>

	भाग, 20, 20ई, 21 सेक्टर की समस्त गलिया व क्षेत्र। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।
वार्ड 14 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 12983	सीमा सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल कॉर्नर से चलते हुए सेक्टर 9 की मुख्य सडक से होते हुए मुख्य चौपासनी रोड पहुंचकर सडक के सहारे चलते हुए जीवन ज्योति अस्पताल के सामने की कच्ची सडक से चलते हुए लवकुश पहुंचकर सेक्टर 8 सम्मिलित करते हुए मुख्य चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पहुंचकर विजय ज्यूस होते हुए सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल के कॉर्नर तक का क्षेत्र।
	क्षेत्र राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 8,9,10, शेष सेक्टर 16 का समस्त गलिया व क्षेत्र। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।
वार्ड 15 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 12495	सीमा पाललिक रोड स्थित कमला नेहरू अस्पताल से पाललिक रोड के सहारे चलते हुए मुख्य चौपासनी रोड पहुंचकर चौपासनी रोड के सहारेसहारे चलते हुए बाया भाग लेते हुए - सहारे चलते हुए टेक्टर -लाल पुलिया पहुंचकर नाले के सहारे एसोसिएशन रोड चलते हुए उसका दाया भाग लेते हुए 56 अमृत नगर पहुंचकर सडक का दाया भाग लेते हुए रूपरजत कॉलोनी के दक्षिणी पूर्वी गेट पहुंचकर जैन स्थानक अमर नगर से सिसोदिया गार्डन होते हुए राजीव गांधी कॉलोनी सीमेन्ट सडक का दाया भाग लेते हुए 148 अशोक नगर का दाया भाग होते हुए प्यारे मोहन चौराहे पहुंचकर राजीव गांधी कॉलोनी के सीमा के सहारे निर्मल पेन्टस पर पहुंचकर नाले तक।
	क्षेत्र एलआईजीएच, नाईयो की बगेची, टीअस्पताल.बी., कमला नेहरू नगर अस्पताल, महावीर नगर, मरुधर नगर, राजीव गांधी कॉलोनी, शातिप्रिय कॉलोनी, राज अस्पताल। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।

<p>वार्ड 16 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9275</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>मुख्य चौपासनी रोड पर भैरव नाले के कॉर्नर (लाल पुलिया) का दक्षिणी भाग रोड तक .से पाचवा पुलिया चौ5 वां पुलिया से विजय ज्यूस भण्डार से (हाईमास्क लाईट) आवासन मण्डल ऑफिस होते हुए सीए सालासर चौराया होते सहारे पश्चिम दिशा तक का बांया -नाले के सहारे हुए भैरव भाग होते हुए प्रथम पुलिया भैरव नाले के कॉर्नर तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 से 7 का समस्त गलिया व क्षेत्र। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 17 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11539</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>अम्बा होटल के सामने से ज्वाला विहार होते हुए सूथला मुख्य सडक तक का पश्चिमी भाग, सूथला मुख्य सडक होते हुए गजानन्द कॉलोनी से पुराना टेलीफोन ऑफिस से वन विभाग तथा अशोक नगर होते हुए भीयाराम मास्टर स्कूल के सामने वाला भाग से सोमानी कॉलेज रोड पर स्थित उम्मेदसागर पुलिया से राजीव गांधी कॉलोनी गली नं. 1 से 8 तथा सोमानी कॉलेज रोड होते हुए अम्बा होटल के सामने चाय की होटल तक का दक्षिणी भाग सम्पूर्ण</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>राजीव गांधी कॉलोनी गली नं .1 से 8, ज्वाला विहार, गजानन्द कॉलोनी सूथला, श्मशान रोड सूथला, झीझांबेरी, राजीव गांधी कॉलोनी हत्था, पुराने पार्षद सीताराम जी मकान के आसपास का क्षेत्र-, धर्मशाला, माणक प्रजापत के घर के आस पास का-क्षेत्र, अशोक नगर, गजानन्द मन्दिर के आस-पास क्षेत्र। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले त्र होंगे।इस वार्ड के क्षे</p>
<p>वार्ड 18 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10686</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>सोमानी कॉलेज के गेट के सामने स्थित डॉगोपालानी . मकान के सामने से खाली प्लॉट से कन्हैया स्वीट होम होते हुए विष्णु कॉलोनी तक का उपरीपश्चिमी भाग/, विष्णु कॉलोनी तिराहे से बाबूसिंह राठौड के मकान के सामने वाला भाग(बांया भाग)दक्षिणी भाग/, आनन्द डेयरी वाली सडक से</p>

	<p>देवी रोड तक का उपरी भागपश्चिमी भाग/, देवी रोड पुलिये तक का बांया भाग पुलिये से खेमदास जी वैष्णव 11 नम्बर गली से दरगाह गली होते हुए वन विभाग तक नगर निगम की सीमा के सहारे पुनः ज्योति नगर, गोतम ऽषि कॉलोनीपानी की टंकी से वन विभाग की सीमा से भियाराम/मास्टर की स्कूल तक का उतरी भाग। सोमानी कॉलेज रोड पर उम्मेदसागर कैनाल पुलिया से सोमानी कॉलेज गेट के गोपलानी मकान के सामने .सामने वाला उतरी हिस्सा डॉ खाली प्लाट तक।</p>
	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>कमला नेहरू नगर विस्तार तृतीय, आदर्श स्कूल, पीएनटी कॉलोनी, महेन्द्रनाथ अरोडा पार्क, माहेश्वरी न्यौति भवन, दरगाह गली, ज्योति नगर, चांदणा भाकर, गोतम ऽषि कॉलोनी, देवी नगर, बरकत खां मेहर का मकान, पुराने राशन की दुकान बालाजी मन्दिर, देवी रोड पुलिया टेक्सी स्टेण्ड, भूवनेशचन्द्र माथुर मकान तक, वैष्णव कॉलोनी। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 19 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11041</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>गली नं .11 उम्मेदसागर केनाल में स्थित पुलिया खेमदास वैष्णव के सामने से देवी रोड पुलिया तक का नीचेपूर्वी / से विकास नगर होते हुए आचार्यो का मौहल्ला तक का भाग .चिल्डन स्कूल के सामने से गली नं.के.उतरी भाग। आर6 से 23 तक से होते हुए आदर्श बेकरी तक का पश्चिमी भाग से आदर्श बेकरी से अरोडा नमकीन वाली गली से भैरव भाकर नाला होते हुए उम्मेदसागर केनाल तक का दक्षिणी भाग। उम्मेदसागर केनाल के सहारे शिव मन्दिर पुलिया से होते हुए रोकडिया बालाजी मन्दिर तक का नहर का उपरी भागपश्चिमी भाग से गुरो का तालाब से नगर निगम की / सीमा तक का दक्षिणी भाग</p>
	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>विकास नगर, आचार्यो का मौहल्ला, गली नं .6 से 23 तक चामुण्डा कॉलोनी, इन्द्रा कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी, मोमीन कॉलोनी, जोशी कॉलोनी, रावो की बगेची, हरिजन बस्ती, शिव बस्ती, शिव कॉलोनी, तेजा मन्दिर, ब्राह्मण बस्ती, सैन कॉलोनी। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>

<p>वार्ड 20 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9720</p>	<p>सीमा</p> <p>अखेराज जी तालाब कायलाना रोड का दक्षिणी भाग कायलाना चौराहे से डउकिया अस्पताल से होते हुए भवानी दाल बाटी से गुरो का तालाब मुख्य रोड तक का पश्चिमी भाग। सुलभ काम्पलेक्स से आदर्श वाटिका तक का सामने वाला भाग से आदर्श स्कूल कार्नर से हुडको चौराहे से तक का पश्चिमी भाग (सामने वाला भाग), हुडको चौराहे से आदर्श बैकरी अरोडा नमकीन की गली से भैरव भाकर नाला होते हुए उम्मेदसागर केनाल तक का उतरी भाग, उम्मेदसागर केनाल के सहारेसहारे रोकडिया बालाजी तक - का नीचे का भाग तथा रोकडिया बालाजी से गुरो का तालाब अखेराज जी तालाब का सम्पूर्ण क्षेत्र होते हुए वन विभाग से</p>
<p>वार्ड 21 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9638</p>	<p>क्षेत्र</p> <p>मीरा कॉलोनी, संबोधि धाम, अखेराज जी का तालाब, गुरो का तालाब, श्रीराम कॉलोनी, कन्हैया कॉलोनी, संतधाम, अरिहन्त नगर, गोकुल विहार, महावीर नगर, हुडको क्वार्टर, हुडका चौराहा, दाउ की ढाणी, गणपति नगर, शान्तिनाथ नगर, जानकी वल्लभ मन्दिर के आसपास का क्षेत्र-, गोपी कृष्ण विहार, वृदांवन विहार, सिद्धार्थ होटल के पीछे का सम्पूर्ण क्षेत्र। माछर फार्म हाउस के आस पास का क्षेत्र।- उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>इन्द्रा कॉलोनी, संजय ए कॉलोनी, हुडको क्वार्टर, के सेक्टर, 96</p>

	<p>क्वार्टर, आंशिक एपास का -सेक्टर हाउसिंग बोर्ड व आस-क्षेत्र।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 22 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10411</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>तुलसी कॉलोनी के अन्तिम बिन्दु से वन विभाग की बाउण्डरी के सहारे चलते हुए कबीर नगर व गणसहीदा कॉलोनी नया वार्ड 23 की सीमा से जलदाय विभाग से मुख्य सडक के सहारे चलते हुए कायलाना चौराहे पहुंचकर खेत की बाउण्डरी बांया भाग तुलसी कॉलोनी के अन्तिम बिन्दु तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>मालियों का श्मशान, कबीर नगर मस्जिद के आसपास-, कबीर नगर बिजलीघर ऑफिस, भील बस्ती, कबीर नगर, एकलिंगी महादेव, तुलसी कॉलोनी, गणसहीदा कॉलोनी व आस पास का क्षेत्र।-</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 23 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8630</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>जेपार्क का दांया भाग से धर्मावतो का बास से व्यास का .डी. बाग होते हुए जावतो की बावडी की पतली सडक से होते हुए, शफी बिल्डिंग से निकल, व्यापारियो के मौहल्ले का दांया भाग ब्रह्मकुण्ड से सतुजी माली के घर से होते हुए व्यास कॉलोनी होते हुए रावटी को सम्मिलित करते हुए रावटी मुख्य सडक से वन विभाग के सहारेसहारे सिंघाडियो की - बारी होते हुए विद्याशाला स्कूल तक का दांया भाग से बायासा कोटे होते हुए से सूरसागर थाने वाली रोड होते हुए बायासा कोटे के सामने वाली गली से मावडियो की घाटी से नीचे उतरते हुए दांया भाग से राजबाग योजना, टांके के नीचे का क्षेत्र से पीएचईडी ऑफिस से रेलवे लाईन के पीछे की कच्ची बस्ती तथा भैरव भाकर के नीचे का क्षेत्र पहाडी पर बाबा रामदेव मन्दिर मेघवाल समाज का क्षेत्र व पीएचईडी से मेघवाल समाज श्मशान को सम्मिलित करते हुए जेडी पार्क तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>धर्मावतो का बास, जावतो की बावडी, व्यास बाग, रूपावतो का बास का आंशिक भाग, व्यापारियो का मौहल्ले आंशिक, ईमलीवाडी पेटोल पम्प के पीछे, व्यास कॉलोनी, रावटी का</p>

	<p>आसपास का क्षेत्र-, पुलिस थाने के पीछे का क्षेत्र, खरबूजा बावडी, नेनची का बाग, मावडियो की घाटी, खवाहिश का पीछे का क्षेत्र, तारागढ, सुखराम नगर सेक्टर ए व बी राजबाग योजना, पीएचईडी ऑफिस के पास रेलवे लाईन के उपर की कच्ची बस्तीयां।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 24 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9460</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>विद्याशाला स्कूल से चांदपोल टेम्पो स्टेण्ड तक का दांया भाग चांदपोल टेम्पो स्टेण्ड के मध्य से गौर का चौक के मध्य होते हुए, रामेश्वर मन्दिर व रघुनाथ बावडी को छोडते हुए पास वाली गली के, सर्व समाज के श्मशान से वन विभाग की सीमा तक का उतरी भाग से वन विभाग सीमा के सहारेसहारे चलते हुए-, बडी भील बस्ती होते हुए, राजबाग मेघवाल बस्ती, हरिजन बस्ती होते हुए मावडियो की घाटी तक का दांया भाग से, मावडियो की घाटी चढकर सूरसागर थाने वाली मुखय सडक होते हुए बायासा कोटे के सामने वाले भाग को सम्मिलित करते हुए पुनः विद्याशाला स्कूल तक का भाग।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>बडी भील बस्ती, मावडियो की घाटी का उतरी पश्चिम भाग, राजबाग हरिजन कच्ची बस्ती, राजबाग मेघवाल कच्ची बस्ती, रैगर बलाई कच्ची बस्ती, बडी भील रैगर बस्ती तक, माता का कुण्ड, माता का कुण्ड चांदपोल कच्ची बस्ती, मोचियो का बास, रामदेव वाली गली, आंशिक गायो की गोर, बड़ा रामद्वारा, पूर्व पार्शद गोविन्दजी का मकान के आस-पास का क्षेत्र, रामदेव चौक।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 25 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9285</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>सिंघाडी की बारी से कमलेश दवे के मकान से होते हुए क्रियाकोट से विद्याशाला स्कूल तक का दायां भाग से चांदपोल टेक्सी स्टेण्ड से गायो की बोर के मध्य से रामेश्वर मन्दिर के पास वाली सडक से व्यासजी की समाधि तक का बायां भाग से वन विभाग की सीमा तक का बायां भाग। वन विभाग की सीमा से गोरधन तालाब की पाल से कैलाशपुरी आश्रम से शहर पनाहकोट तक का उतरी भाग। शहर पनाहकोट से के सहारेसहारे चांदपोल गेट तक का -</p>

	<p>बांया भाग। चांदपोल गेट से फुल्लेश्वर महादेव तथा उन्दरीयो की गाल व पुष्य नक्षत्र भवन के पास वाली गली ढूँढते हुए का बाया भाग से पूर्व की दिशा में आगे ब ओझा के मकान वाली गली की सिढियां चढते हुए .पी.ओ देवेन्द्र दवे, जोगराज जी व्यास, शकुन्तला भवन के सामने वाला भाग, खागल भैरूजी मन्दिर से वैभव बोडा के सामने वाला हिस्सा से हठलेश्वर महादेव तक का उतरी हिस्सा से नवचौकिया डिस्पेन्सरी के सामने वाले बांया भाग से रानीसर पदमसर का बांया भाग से शहर पनाह कोट होते हुए सिंघाडी की बारी तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।</p>
	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>उन्दरीयों की गाल, चांदपोल घाटी का बांया भाग, जवाहर शिक्षण संस्थान चुने की चौकी, रंगीला मौहल्ला, ठाकुर द्वारा भाटीयों का बास, भागी पौल का क्षेत्र, रामपोल बारी, हजारी चबुतरा, पिछला बास, शिव शंकर वेदो का चौक, भटो का चौक, रावतो की गली, पदमसर घाटी का क्षेत्र छोटी भील बस्ती नारायण सिंह भाभा का चौक, मुंदडो की गली, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर, नाईयो की बगेची, बाबारामदेव कॉलोनी कच्ची बस्ती, समाधि रोड, मेघवाल बस्ती, भागीपोल चांदपोल कच्ची बस्ती, रामेश्वर मन्दिर के आसपास का क्षेत्र-, रघुनाथजी बावडी का आसपास क्षेत्र, गोरधन तालाब चांदपोल कच्ची बस्ती, बाबानाडी मेघवाल बस्ती, केलाश पुरी आश्रम का क्षेत्र, ब्रह्मपुरी। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 26 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10059</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>कुम्हारिया कुंआ फोफलिया जी की दुकान से ठाकुरजी का मन्दिर होते हुए मदारशाह छल्ला से होते हुए चौहनो का चौक तक का बांया भाग से जीनगर न्याति नोहरा, जीनगर समाज मन्दिर से किशनराज धोबी के मकान से दमामी समाज होते हुए गंगलाव तालाब में बसी बस्ती को सम्मिलित करते हुए गणेशगढ से गोपीकिशन हर्ष के मकान से शहर पनाहकोट तक। शहर पनाहकोट होते हुए उपकेश्वर महादेव होते हुए चांदपोल चौका को सम्मिलित करते हुए चांदपोल के मुख्य दरवाजे तक का दांया भाग चांदपोल गेट से पुष्य नक्षत्र भवन के पास की गली तक का दायांपश्चिमी/ भाग तथा पुष्य नक्षत्र भवन के पास वाली गली का दाया भाग से पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए ओओझा के .पी. मकान वाली गली की सिढियां चढते हुए देवेन्द्र दवे, जोगराज</p>

	<p>जी व्यास, शकुन्तला भवन का दांयादक्षिणी भाग/, खागल भैरूजी मन्दिर से वैभव बोडा के मकान होते हुए हठलेश्वर महादेव तक का दक्षिण हिस्सा से नवचौकिया डिस्पेन्सरी के सामने वाले दांया भाग से नवचौकिया डिस्पेन्सरी के सामने से मुख्य सडक होते हुए नाईयो का बड, बालकिशन मन्दिर, मोचियो की घाटी, तापडियो की गली से कुम्हारियां कुंआ चौक से फोफलियो की दुकान तक।</p>
	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>भूतानाडी, चांदपोल चौका, जयनारायण व्यास कॉलोनी, छिपो की घाटी, गजानन्द चौक, रामदेव मन्दिर चौक, लोढो की गली, खागल, मूथो की गली, अंधेरी गली, छिपो का चौक, राय साहब की बगेची, गंगलाव की पोल, नीम की गली, मदनमजील वाली गली, मोचियो की घाटी का चौक, बुबाँ की गली, मोचियो का नोहरा वाली गली, गंगलाव तालाब आंशिक, न्यू बरकततुल्लाह खा कॉलोनी गणेशगढ़ के सामने, तापडीयो की गली, काक साहब की हवेली, फुलेराव की घाटी, गंगलाव पोल का अन्दर का क्षेत्र, नाईको की मस्जिद। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 27 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10841</p>	<p>सीमा</p> <p>खाण्डा फलसा दुदेश्वर महादेव मन्दिर से असलम पहलवान के घर से होते हुए राजस्थान चुन्दडी घर की दुकान तक का दांया भाग लक्ष्मी नारायण जी के मकान से ताहीर के मकान तक का दांया भाग से होते हुए टांसफार्मरजठियो की/ गली दांया व बांया भाग को सम्मिलित करते हुए लाछी बाई तक तथा सामुदायिक भवन का दांया भाग, कालीया दुक्का से मुडते हुए छोटू पान वाली गली तक का दांया भाग होते हुए बकरा मण्डी मुख्य रोड को सम्मिलित करते हुए मुमताज चक्की की दुकान से होते हुए बाईजी महाराज के पीछे वाले गेट तक का दांया व बायां भाग का क्षेत्र से शहर पनाह कोट होते हुए पुनः उतर की तरफ चलते हुए बरकतुल्लाह खां कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए माहेश्वरी बगेची के कोर्नर से मदिना मस्जिद होते हुए बकरा मण्डी चौक से कसाईयो की ढाल से भाटियो की गली से रूपावतो की गली होते हुए कसाईयो का बास से कुम्हारिया कुंआ से राजस्थान चुन्दडी के मकान से होते हुए एक मीनार मस्जिद होते हुए दुदेश्वर महादेव मन्दिर तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।</p> <p>क्षेत्र</p>

	<p>खाण्डा फलसा, लडडो की गली, चढवो की गली आशिक, कुम्हारो का बास, सायरदास जी का आश्रम, कालिया दुक्का आशिक, बकरामण्डी का चौक, कसाईयो का नोहरा, रूपावतो कि गली, बरकत कॉलोनी, बाईजी महाराज का आश्रम, मक्की मस्जिद के आसपास का क्षेत्र-, भाटीयो की गली के आसपास का क्षेत्र, मदीना मस्जिद के आसपास का क्षेत्र-, ओलिया मस्जिद के सामने वाला इलाका, सोहनकी मां के मकान तक उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 28 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11505</p>	<p>सीमा सिंवाची गेट से धानमण्डी होते हुए कटारिया चौक से छिपो की गली राजस्थानी एम्पलीपायर से खाण्डा फलसा दूधेश्वर महादेव होते हुए चढवो की गली का बांया भाग असलम पहलवान की क्लीनिक वाली गली दांया व बांया भाग को सम्मिलित करते हुए से मियों चौक से चिडिया गली होते हुए असलम पहलवान के घर के सामने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र से मिया चौक से महिलावास से यतीम खाना से कालिया दुक्का का आंशिक भाग, सामुदायिक भवन से आगे सलीम आकली के मकान से बकरा मण्डी मुख्य सडक होते हुए सलीम मास्टर की गली के दोनो भाग को सम्मिलित करते हुए सुखानन्द बगेची होते हुए शहर पनाह कोट तक का बांया भाग। शहर पनाहकोट से बांयी दिशा में चलते हुए सुखानन्द बगेची, गड्डी, शाह कालोनी, भाटी भवन से नाथो की बगेची होते हुए नगर निगम ऑफिस से होते हुए बरादरी का बांया भाग होते हुए शकीना कॉलोनी लौहरो की बगेची को सम्मिलित करते हुए मुख्य गीता भवन जज साहब प्रकाश जी टाटीया साहब के मकान से होते हुए महेश स्कूल सिंवाची गेट तक का सम्पूर्ण क्षेत्र।</p> <p>क्षेत्र चढवो की गली का आंशिक भाग, असलम पहलवान क्लीनिक की गली, मुबारक चाय वाली की दुकान से बांया चिडिया गली तक, मियां चौक, महिला बास, यतीन खाना, कालिया का धूक्का का आंशिक हिस्सा, बकरा मण्डी की मुख्य सडक, सुखानन्द की बगेची, सकिना कॉलोनी लौहारो की बगेची, नाथों की बगेची, गड्डी, शाह कॉलोनी, गीता भवन की मुख्य सडक, सिंवाची गेट पुलिस थाना, कटारियों का चौक, छिपों की मस्जिद, सिंवाची गेट, महेश स्कूल, जोगियो का बास, पीरो का छल्ला, स्वर्गाश्रम रोड, भाटी भवन पुराना</p>

	<p>बस स्टेण्ड, धानमण्डी । उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 29 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10303</p>	<p>सीमा जज साहब श्री प्रकाश जी टाटिया के मकान के पास से सुन्दर विहार आशिया बाई के कब्रिस्तान से सीधे चलते हुए बांया भाग मे हकीम कॉलोनी से सीधे होते हुए श्मशान रोड एकलव्य भील बस्ती से होते हुए पीपा प्याउ के पास से काली टंकी वाली गली से सिकन्दर किराणा स्टोर के सामने से उपर पहाडी क्षेत्र संजय सी कॉलोनी गली नं .18 से होते हुए लक्ष्मणसिंह चौहान के मकान के पास से होते हुए बांया भाग से चलते हुए बाबूलाल फोटो ग्राफर के मकान से होते हुए डॉमहेन्द्र मेहरा के मकान से होते हुए लाला . लाजपतराय कॉलोनी नहर वाली रोड इकबाल भाई मेडिकल वाले के मकान से होते हुए शेरू तन्दूर वाले के मकान के सामने से होते हुए पूर्व पार्श्व नरसिंहराम मेघवाल के मकान के पास से होते हुए मारवाड मेडिकल के पास वाली रोड से होते हुए इकू बा के मकान तक जज साहब के घर के पास तक।</p> <p>क्षेत्र हाथीनहर, कब्रिस्तान, ईदगाह, संजय सी कॉलोनी एवं इसके आसपास का क्षेत्र-, जाकिर हुसैन कॉलोनी, हकीम कॉलोनी, सुन्दर विहार, छिपा नाडी, नहर वाली रोड। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 30 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11647</p>	<p>सीमा चौपासनी रोड से जज साहब श्री अशोक जी माथुर के मकान वाली सडक पर चलते हुए ईदगाह के पीछे के भाग से 2 गली से बाई तरफ चलते हुए ठकरानी एवं हरिजन बस्ती चौक पहुंचकर जगदम्बा कॉलोनी होते हुए पहाडी क्षेत्र होते हुए प्रतापनगर नाले वाले पास का क्षेत्र नगीना मस्जिद, गुलशन अदब मदरसा रोड मोर्निंग ग्लोरी स्कूल को सम्मिलित करते हुए प्रतापनगर से जगदम्बा कॉलोनी जाने वाली मुख्य सडक के सहारे चलते हुए मेघवाल बस्ती सरगरा बस्ती, पंचोलिया नाडी क्षेत्र को लेते हुए नया वार्ड 34 के बाउण्डरी के सहारे चलते हुए बोम्बे मोटर चौराहे तक पहुंचकर बोम्बे मोटर चौराहे से जज साहब श्री अशोक जी माथुर के मकान की गली तक।</p>

	<p>क्षेत्र</p> <p>बोम्बे मोटर्स चौराहा, महेश हास्टल, जगदम्बा कॉलोनी, सरगरा कॉलोनी, लाला लाजपतराय कॉलोनी, मेघवाल बस्ती, महेश हास्टल वाली गली अरोडा भवन, मण्डप रेस्टोरेन्ट, बोम्बे मोटर्स चौराहा तक मुख्य चौपासनी रोड का उतरी भाग पंचोलिया नाडी।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 31</p> <p>नगर निगम जोधपुर</p> <p>कुल जनसंख्या</p> <p>11150</p>	<p>सीमा</p> <p>आखलिया चौराहे से राजा मोटर्स से नया वार्ड 32 की बाउण्डरी के सहारे जी सेक्टर प्रतापनगर की सीमा के सहारे चलते हुए फैजा मस्जिद क्षेत्र को लेते जगदम्बा कॉलोनी चौराहे पर स्थित महादेव डेयरी का दाया भाग से मजदूर कॉलोनी जाने वाली सडक के सहारे चलते हुए दल्लेखां पेटोल पम्प के पीछे से चलते हुए पुनः आखलिया चौराहे राजा मोटर्स तक।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>बरकत कॉलोनी का उतरी भाग, अम्बेडकर कॉलोनी, भील बस्ती, फैजा मस्जिद क्षेत्र, कुम्हारो का बास, जगदम्बा कॉलोनी, मजदूर बस्ती का दाया भाग, जी सेक्टर, आदर्श प्याउ का क्षेत्र।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 32</p> <p>नगर निगम जोधपुर</p> <p>कुल जनसंख्या</p> <p>12217</p>	<p>सीमा</p> <p>शमशान रोड, पुलिस चौकी के सामने से होते हुए प्रताप नगर, भील बस्ती जे सेक्टर हाउसिंग बोर्ड को शामिल करते हुए सूरसागर रोड का दक्षिणी भाग, सूरसागर रोड की मुख्य रोड से होते हुए आखलिया का पूर्वी भाग, आखलिया फिल्टर हाउस से जगदम्बा कॉलोनी को छोडते हुए मेघवाल शमशान का उत्तरी भाग</p> <p>क्षेत्र</p> <p>प्रतापनगर, भील बस्ती जेसेक्टर, हाउसिंग बोर्ड के सभी सेक्टर, यूआईटी सेक्टर ए से एच तक सभी सेक्टर से हुडको क्वाटर्स, संजय बी कॉलोनी, UIT G सेक्टर छोडकर।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 33</p> <p>नगर निगम जोधपुर</p>	<p>सीमा</p> <p>मुख्य सूरसागर सडक पर सुलभ काम्पलेक्स जेके .के.</p>

<p>कुल जनसंख्या 11217</p>	<p>सामने स्थित से आखलिया चौराहा का पश्चिम भाग तथा चौराहा से अम्बा होटल तक का उतरी भाग व आखलिया अम्बाहोटल से सोमानी कॉलेज के सामने डॉगोपलानी गोपलानी मकान से कन्हैया मकान तक का पूर्वी भाग डॉ स्वीट होम से होते हुए मदीना मस्जिद से विष्णु कॉलोनी चौराहे का पूर्वी भाग चौराहे से होते हुए बाबूसिंह राठौड के ते हुए आनन्द डेयरी वाली सडक का उतरी भाग मकान से हो से देवी रोड तक का पूर्वी भाग देवी रोड से आरचिल्डन .के. स्कूल के सामने तक का दक्षिणी भाग देवी रोड तिराहे से हुडको चौराहे होते हुए आदर्श वाटिका तक का पूर्वी भाग से आदर्श वाटिका कार्नर तक सुलभ काम्पलेक्स, सूरसागर मैन रोड तक का दक्षिण भाग</p>
	<p>क्षेत्र कमला नेहरू नगर विस्तार प्रथम व द्वितीय भाग, नन्दनवन डिफेन्स कॉलोनी अंध विद्यालय गली नं .1 से 5 कमला नेहरू नगर सेक्टरए-, गुजराती कॉलोनी, बंगाली क्वार्टर, शुभम अस्पताल, समन्वय धाम, विष्णु कॉलोनी, इन्द्रा कॉलोनी, गायत्री पार्क के आसपास क्षेत्र-, पाकीजा फलोर मिल, बिजलीघर पार्क, कमलेश पुरोहित तयब हुसैन, निसार मोहम्मद अनिल जोशी, कंचन चौधरी, रणजीत जोशी सुरेन्द्र नाग के घर के आसपास क्षेत्र प्राकृतिक चिकित्सालय के - पीछे, राम तोलानी, कमला नेहरू नगर एल .एच.जी.आई. कमला नेहर नगर ए,बी,सी,डी सेक्टर, कमला नेहरू नगर। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 34 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10632</p>	<p>सीमा आखलिया चौराहे पर स्थित चौपासनी मुख्य सडक चलते हुए बापू कॉलोनी, न्यू कोहिनूर के सामने से चलते हुए उमराव खां पेटोल पम्प, बोम्बे मोटरर्स चौराहे से हरिराम बगेची से महेश चिल्डन स्कूल का बांया भाग होते हुए मजदूर कॉलोनी सडक से चलते हुए दल्ले खां पेटोल पम्प के पीछे तक महादेव डेयरी का बांया भाग।</p> <p>क्षेत्र उमराव खां कॉलोनी, हरिराम जी की बगेची, बापु कॉलोनी, बरकत कॉलोनी का दक्षिणी भाग, मजदूर कॉलोनी का बांया भाग। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>

<p>वार्ड 35 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10423</p>	<p>सीमा बारहवीं रोड चौराहे से पाल रोड के सहारे चलते हुए आजाद हिन्द मार्केट पहुंचते हुए माहेश्वरी न्याति नोहरा के पास की बस्ती को लेते हुए राज ज्वैलर्स के सामने बाबू राजेन्द्र मार्ग होते हुए बालाजी मन्दिर रोड होते हुए न्यू कोहिनूर के पीछे की बस्ती को शामिल लेते हुए मुख्य चौपासनी रोड पहुंचकर बोम्बे मोटर चौराहे होते हुए पुनः बारहवीं रोड चौराहे तक।</p> <p>क्षेत्र पाल रोड, बैंक कॉलोनी, वर्गी कॉलोनी, कुम्हारो की बगेची, आजाद हिन्द मार्केट, भाट बस्ती, सेनिक मोटर्स के पीछे, न्यू कोहिनूर सिनेमा, बालाजी मन्दिर के नीचे का भाग, कुम्हारियों का बास, हरिजन बस्ती, मेघवाल कॉलोनी, राव कॉलोनी, दमामी कॉलोनी, बाबू राजेन्द्र मार्ग। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 36 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10202</p>	<p>सीमा बालाजी मन्दिर आखलिया चौराहे से पाल लिंक रोड होते हुए पाल लिंक रोड पर संचेती अस्पताल पहुंचकर डॉमहेन्द्र बलदेव नगर सिंह के मकान से मन फोटो विजन होते हुए गली नं12 रामदेव डेयरी प्रोविजन से होते हुए बाबा रामदेव मार्ग पहुंचकर बाबा रामदेव मार्ग पर सहारेसहार-े चलते हुए बालाजी मन्दिर मसुरिया हिल पहुंचकर बालाजी कॉलोनी को शामिल करते हुए आखलिया चौराहा तक।</p> <p>क्षेत्र बलदेव नगर एएसजी ब्लॉक, वीर दूर्गादास कॉलोनी, बलदेव नगर गली न .1 से 12, लंगा बस्ती, नन्दवन, बालाजी कॉलोनी, पहाडियां के नीचे का भाग, पुराने फिदुसर रेलवे मार्ग के पीछे की बस्तियाँ। उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 37 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9288</p>	<p>सीमा बाबा रामदेव मार्ग से नट बस्ती जाने वाली सडक नट बस्ती को छोडकर श्रमिकपुरा को शामिल करते हुए नाले तक नाले के सहारे-सहारे चलते हुए बी-8 धनराज नांगल के मकान से होते हुए राज ज्वैलर्स के पास से भील व बावरी बस्ती को शामिल करते हुए बाबा रामदेव मन्दिर दक्षिणी सीमा को शामिल करते हुए पुनः बाबा रामदेव मार्ग तक।</p> <p>क्षेत्र</p>

	<p>श्रमिकपुरा ए व बी बस्ती, भील व बावरी बस्ती, लौहार बस्ती, सिकलीगर बस्ती, शिव बस्ती, बलदेव नगर गली नं . 13,14,15, मेघवाल बस्ती, वीर दुर्गादास विस्तार कॉलोनी एवं इसके आसपास का क्षेत्र-, बाबा रामदेव मन्दिर।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 38 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10400</p>	<p>सीमा सुभाष मार्ग जोधपुर ट्रौली वर्क्स से संतोषपुरा से पाल रोड के सहारे चलते हुए पाल लिंक रोड पहुंचकर पाल लिंक रोड के सहारे चलते हुए से नट बस्ती की मुख्य सडक चलते हुए बाबा रामदेव मार्ग पहुंचकर संतोषपुरा तक</p> <p>क्षेत्र सुभाष मार्ग, संतोषपुरा, सिंधी मुस्लिम बस्ती, नट बस्ती, दल्ले खां की चक्की, श्रमिकपुरा सी सेक्टर, यूकॉलोनी .टी.आई., गांधी के कॉलोनी, कुष्ठ आश्रम, सिलावटो की मस्जिद।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित समस्त गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 39 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8650</p>	<p>सीमा हनवन्त स्कूल (जमनादेवी अग्रवाल स्कूल) से दल्ले खों चौराहे से बाहरवी रोड सर्किल तक समस्त दाया भाग, बाहरवी रोड सर्किल सुलभ कॉम्पलैक्स रावण का चबुतरा होते हुए द्रंकररलाल रामरतन पेट्रोल पम्प होते हुए कल्पतरु शॉपिंग सेन्टर को सम्मिलित करते हुए दाया भाग रिलायंस मॉल डाकघर बी.एस.एन.एल ऑफिस होते हुए इन्द्रा योग संस्थान तक का दाया भाग इन्द्रा योग संस्थान से डी सेक्टर होते (डागा डायमण्ड) मेडिकल कॉलेज ओडिटोरियम से गांधी मुर्ति मेडिकल कॉलेज सर्किल का दाया भाग, गांधी मुर्ति चौराहा से एम.डी.एम. कॉलेज सर्किल से एम.डी.एम. विद्युत सब स्टेशन का दाया भाग, एम.डी.एम. विद्युत सब स्टेशन के सामने से एम.डी.एम. हॉस्टल कैम्पस के अन्दर से होते हुए गंदा नाला छोडते हूये एच सेक्टर दाया भाग, एच सेक्टर का समस्त क्षेत्र, एच सेक्टर से जी.डब्लू.डी. कार्यालय होते हुए रेल्वे लाईन तक समस्त दाया भाग, रेल्वे लाईन से जमना देवी स्कूल(हनवन्त स्कूल) तक दाया भाग।</p> <p>क्षेत्र डी सेक्टर शास्त्रीनगर, मेडिकल कॉलेज क्वाटर, शास्त्रीनगर डी सेक्टर, ई सेक्टर, जी सेक्टर, ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर,</p>

	<p>एच सेक्टर, एवं आर.ए.सी.बी. कॉलोनी, पी.एन.टी. कॉलोनी कल्पतरू शॉपिंग सेन्टर, डाकघर बी.एस.एन.एल ऑफिस फायर ब्रिगेड शास्त्रीनगर, बरकतुला खान स्टेडियम, रावण का चबूतरा।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 40 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 5897+ओ.जी.(रेल्वे कॉलोनी)</p>	<p>सीमा रोटरी चौराहे (एम.डी.एम. सर्किल) से रोटरी कंरट बालाजी होते हुए रेल्वे लाईन पुलिया के सहारे सहारे पुरानी रेल्वे लाईन होते हुए सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के पास से न्यु पावर हाउस रोड होते हुए भू-जल विज्ञान गृह के सामने औद्योगिक क्षेत्र (लाईट औद्योगिक क्षेत्र) होते हुए न्यु पावर हाउस रोड गंदे नाले से होते हुए गंदे नाले का (गणदगा फाउण्ट्री, लाईट औद्योगिक क्षेत्र का समस्त क्षेत्र) गंदे नाले से एम.डी.एम. अस्पताल का बड़ा नाला होते हुए एम.डी.एम. मडिकल कॉलेज गेट से एम.डी.एम सर्किल रोटरी सर्किल तक दाया भाग।</p> <p>क्षेत्र रेल्वे डी.एस. कॉलोनी, रेल्वे वर्कशॉप कॉलोनी, कमला नेहरु कॉलोनी, इसाईयो का क्रबिस्तान, फोर.एफ., शास्त्रीनगर सेक्टर 7, सेक्टर 7 विस्तार, इन्द्रा विहार कॉलानी, इन्द्रा विहार कॉलोनी के सामने कच्ची बस्ती, लाईट औद्योगिक क्षेत्र, जिला उद्योग कार्यालय का क्षेत्र।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 41 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8776</p>	<p>सीमा भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन से न्यु पाली रोड का बाया भाग, न्यु पाली रोड लहरिया स्वीट होम के सामने वाली रोड से पोलेटेक्निक कॉलेज दीवार का बाया हिस्सा पोलेटेक्निक बवंडरी से गंदा नाला को क्रॉस करते हुए भगत की कोठी चौकी बवंडरी से पोलेटेक्निक कॉलेज मैन रोड से भैरुजी का चौराहा बाया हिस्सा भैरुजी चौराहा से अडर ब्रीज रेल्वे लाईन से भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन का बाया भाग।</p> <p>क्षेत्र ताज हरि होटल, गांधी कॉलोनी, कृष्ण मंदिर की चोरो गली, जोगमाया कॉलोनी, भगत की कोठी, रामदेव चौक, गुर्जरो का मौहल्ला, देवनारायण मंदिर, सुभाष नगर, विजय नगर, रेल्वे</p>

	<p>लाईन के सहारे रेल्वे के क्वार्टर्स। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 42 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8834</p>	<p>सीमा भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन ट्रेक के सहारे-सहारे बायाँ भाग पीएनबी आवासीय कॉलोनी तक जम्भेश्वर आँवर ब्रीज से एम्स हॉस्पिटल त्रियां सर्कल से सालावास रोड़ का बायाँ भाग, बासनी गाँव के.के. कॉलोनी नगरीय सीमा से होते हुए बासनी रेल्वे स्टेशन के सामने औद्योगिक क्षेत्र रामेश्वर नगर चौराहा से पाली रोड़ जाने वाले मुख्य सड़क का बायाँ भाग, औद्योगिक क्षेत्र कृद्गिा उपज मण्डी कॉर्नर से बायाँ भाग, होते हुए रेल्वे ट्रेक के पास-पास जम्भेश्वर ब्रीज के नीचे से अमृता देवी सर्कल से मुख्य पाली रोड़ होते हुए भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन तक का बायाँ भाग।</p> <p>क्षेत्र भगत की कोठी रेल्वे क्वार्टर, बंगाली क्वार्टर, विस्तार योजना, ट्रान्सफॉर नगर, बासनी गाँव, के.के. कॉलोनी, रिको औद्योगिक क्षेत्र बासनी प्रथम। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 43 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9239</p>	<p>सीमा अमृता देवी पार्क चौराहा से पीएचईडी चीफ ऑफिस मुख्य पाली रोड़ होते हुए दायाँ भाग नर्सरी के कॉर्नर से सरस्वती नगर बी व सी सेक्टर को शामिल करते हुए ओम कॉलोनी से होते हुए सरस्वती नगर डी सेक्टर से होते हुए नगरीय सीमा रामेश्वर नगर चौराहा से कृद्गिा उपज मण्डी मुख्य रोड़ होते हुए कृद्गिा मण्डी दीवार के सहारे-सहारे रेल्वे लाईन के पास संजय कॉलोनी से जम्भेश्वर आँवर ब्रीज के नीचे से दायाँ भाग से अमृता देवी पार्क चौराहा तक।</p> <p>क्षेत्र सरस्वती नगर सोपिंग सेन्टर, सरस्वती नगर ए,बी,सी,डी के सम्पूर्ण सेक्टर, ओम कॉलोनी, नूर मोहम्मद कॉलोनी, संजय कॉलोनी, बासनी कृद्गिा मण्डी, पीएचईडी चीफ ऑफिस तक।</p>

	उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।
वार्ड 44 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11944	सीमा मधुबन तिराहा मुखय पाली रोड से होते हुए मुखय मधुबन रोड का बाया भाग, से नगरीय सीमा होते हुए डी.डी.पी. नगर नगरीय सीमा होते हुए खारी ढाणी नगरीय सीमा होते हुए कृद्गणा नगर नगरीय सीमा का आंशिक भाग से होते हुए आफरी को छोडते हुए आफरी की दीवार के सहारे सहारें मुखय पाली रोड से होते हुए मधुबन तिराहा मुखय पाली रोड तक का समस्त बाया भाग। क्षेत्र मधुबन, डी.डी.पी. नगर खारी ढाणी, कृद्गणा नगर का आंशिक भाग। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।
वार्ड 45 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 5877	सीमा पीली टंकी जय नारायण व्यास युनिवर्सिटी न्यू पाली रोड से अमृता देवी तिराहें तक का बाया भाग, जय नारायण व्यास युनिवर्सिटी अमृता देवी तिराहें से युनिवर्सिटी को शामिल करते हेतु डी.एम.आर.सी. के पीछे से एयरफोर्स की दीवार के सहारें सहारें मुखय पाली रोड के दायी तरफ आफरी को छोडते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय से भैरव कॉलोनी व प्रजापत कॉलोनी को शामिल करते हुए पृथ्वीराज नगर के आंशिक भाग को सम्मिलित करते हुए नगरीय सीमा होते हुए मीरा कॉलोनी नगरीय सीमा होते हुए ढण्ड की ढाणी, सी.एम.एच. कार्यालय, बी.आर.टी.एस. होते हुए पुरानी पाली रोड से एयरपोर्ट दीवार के सहारें-सहारें एयरफोर्स क्षेत्र को शामिल करते हुए युनिवर्सिटी की दीवार के पास से पीली टंकी चौराहें तक बाया भाग। क्षेत्र जय नारायण व्यास युनिवर्सिटी, एयरफोर्स क्वार्टर, एयरफोर्स, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय, नवदुर्गा कॉलोनी, द्रौलेद्गा नगर, मीरा नगर, वायु बिहार, ढण्ड की ढाणी,

	बी.आर.टी.एस. ज्यूडिशियल एकेडमी, सी.एम.एच.ओ. ऑफिस पृथ्वीराज नगर का आंशिक भाग, प्रजापत कॉलोनी। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।
वार्ड 46 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8415	सीमा पांचबती चौराहा से आफिसर मैस होते हुए एयरफोर्स सर्किल तक दाया भाग एवं सिविल एयरपोर्ट रोड एवं एयरफोर्स सर्किल का बाया भाग (आहुजा शेर विलास कॉलोनी) एयरफोर्स चौराहा से भारतीय वायुसेना मुख्यालय तक (गुरुद्वारा) दाया एवं बाया भाग एयरफोर्स क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए गुरुद्वारे से गोल्फ कोर्स रोड होते हुए सरदार क्लब योजना को छोड़ते हुए होटल चन्द्रा मेन रोड तक दाया भाग, होटल चन्द्रा से एस.बी.आई. बैंक रोड होते हुए कमला मेहता चौराहे तक दाया भाग, कमला मेहता चौराहे से श्रीराम इन्टरनेशनल होटल होते हुए पांचबत्ती चौराहे तक दाया भाग। क्षेत्र आफिसर मेस, शिवशक्ति कोलानी, शांती कॉलोनी, आहुजा कोलोनी, शेर विलास कोलानी, यूरो स्कुल, एयरफोर्स क्षेत्र, शक्ति कॉलानी, हरिपुरा व्यास कॉलोनी, भोपालगढ हाउस, सैन्ट्रल स्कूल स्कीम, विद्या पार्क, अरविन्द नगर, अभय गढ, सुभाष एनकेलव, गोल्फ कोर्स रोड, पोलो ग्राउण्ड, श्रीराम इन्टरनेद्गानल होटल, के.वी. प्रथम इत्यादि। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।
वार्ड 47 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8761	सीमा सूर्या कॉलोनी पोलिटेक्नीक कॉलेज परिसर तक, पोलिटेक्नीक कॉलेज परिसर से विक्रमादित्य नगर एवं महावीर नगर तक विक्रमादित्य नगर से जवाहर कॉलोनी होते हुए सरदार क्लब योजना तक, सरदार क्लब योजना से गोल्फ कोर्स योजना द्रामिल करते हुए मालवीय नगर तक, मालवीय नगर से जोधपुर विद्गवविद्यालय परिसर के पीछे की रोड होते हुए घांची कॉलोनी तक, घांची कॉलोनी से पीली टंकी तक, पीली टंकी मुख्य पाली रोड से जय जयन्ती पब्लिक स्कूल के

	<p>पास वाली गली से होते हुए पोलिटेक्नीक कोलेज की दीवार के सहारे सहारे सूर्या कॉलोनी सड़क मुख्य रेजीडेन्सी रोड तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>विक्रमादित्य नगर, महावीर नगर, सूर्या कॉलोनी, पोलिटेक्नीक कॉलेज, घांची कॉलोनी, जवाहर नगर और समस्त सरदार क्लब योजना, मालवीर नगर योजना, गोल्फ कोर्स योजना, सिविल लाइन्स पोलिटेक्नीक के पास। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 48 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11147</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>प्रथम खतरनाक पुलिया से रेल्वे लाईन के सहारे सहारे दुसरी खतरनाक पुलिया रेल्वे लाईन के सहारे सहारे गौरव पथ तक, दुसरा खतरनाक पुलिया से भैरुजी चौराहा गौरवपथ से पोलैटेक्निक कॉलेज, महेन्द्र नाथ अरोडा सर्किल से कमला मेहता सर्किल (देवली हाउस) से एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कॉलेज को शामिल करते हुए पांचबती सर्किल तक समस्त बाया भाग, पांच बती सर्किल से रातानाडा सर्किल होते हुए अयप्पा मंदिर के पास गली से सब्जी मंडी तक बाया भाग, सब्जी मंडी से भास्कर चौराहा से लोको रोड होते हुए रेल्वे कॉलोनी के भाग को शामिल करते हुए रेल्वे अस्पताल, रेल्वे स्टेडियम को शामिल करते हुए पीछे से रेल्वे लाईन तक, रेल्वे लाईन से रेल्वे लाईन के सहारे सहारे प्रथम खतरनाक पुलिया तक</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>रेल्वे अस्पताल, जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, पुराना रेल्वे स्टेडियम, रेल्वे कॉलानी, ला कॉलोनी, अमरचन्द्र फतेहचन्द कॉलोनी, सेनापति भवन, पी.डब्ल्यू डी ऑफिस, पंचवटी कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, खादी भवन, सेन्ट जेवियर स्कूल, पी.डब्ल्यू डी कॉलोनी, हाईकोर्ट कॉलोनी, पोकरण हाऊस, रामापीर कॉलोनी, भगवती कॉलोनी, करणी बाग, गायत्री विहार, शक्ति कॉलोनी, गुड़ा हाऊस, प्रजापति कॉलोनी, खादी भण्डार। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड</p>

	के क्षेत्र होंगे।
<p>वार्ड 49 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9750</p>	<p>सीमा</p> <p>खतरनाक पुलिया के नीचे गौरव पथ रोटरी बालाजी वहा से पुलिस मुख्यालय, डीआरएम कार्यालय होते हुये उच्च न्यायालय न्यायाधिश महोदय के निवास के पास टी सेक्शन तक समस्त बाया भाग न्यायाधिश निवास के पास से महावीर कॉम्प्लेक्स होते हुये मेहता भवन होते हुये मुख्य सी रोड सरदारपुरा थाना तक समस्त बाया भाग, सरदारपुरा थाने से चतुर्थ रोड होते हुये बी रोड सरदारपुरा सुहाग ज्वैल्स तक बाया भाग, बी रोड सरदारपुरा सुहाग ज्वैल्स से मुख्य गौरव पथ तक समस्त बाया भाग, मुख्य गौरव पथ पर बने सुलभ कॉम्प्लेक्स(रावण का चबुतरा) का बाया भाग, सुलभ के सामने से होते हुये जैन टैवल्स से द्राकरलाल रामरतन पेट्रोल पम्प होते हुए सिंधी कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए समस्त बायां भाग डाकघर बी.एस.एन.एस. आफिस होते हुए जोधपुर अस्पताल होते हुए पप्पुमल होटल तक समस्त बाया भाग पप्पुमल होटल से पंजाब चिकन,स्पेश विडोयस, पेट्रोल पम्प, गांधी मुर्ति चौराहा से मुख्य गौरव पथ पर एमडीएम सर्किल होते हुये रोटरी चौराहा एवं खतरनाक पुलिया तक समस्त बाया भाग तक</p> <p>क्षेत्र</p> <p>डीआरएम कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, पी.डब्लू.डी. डाकघर, बखत सागर, सैन्ट एन्ड्रयूस हॉल, तारघर क्षेत्र, नेहरु पार्क, सरदारपुरा सी.ई.डी. के बीच की गलिया, सिंधी कॉलोनी, जलजोग चौराहा, कल्पतरु शोपिंग सेन्टर।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 50 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 12214</p>	<p>सीमा</p> <p>सी रोड़ पर लुणकरण पुरोहित हुए अचल राम तिलायचा के पास से मालियों की गली होते हुए गिरधारी सब्जी की दुकान तक सरदारपुरा बी रोड़ पर शनिश्चर जी का थान रोड़ का बायाँ भाग, शनिश्चर थान रोड़ से ए रोड़ तक बायां भाग ए रोड़ पर पांचवी रोड़, ए रोड़ का जक्शन से पांचवी रोड़ चौराहा का बाया भाग, पांचवी रोड़ चौराहा से बॉम्बे मोटर चौराहा समस्त बायां भाग, बॉम्बे मोटर चौराहा से बी रोड़</p>

	<p>जंक्शन समस्त बाया भाग, बी रोड़ जंक्शन से चिल्ड्रन पार्क होते हुए सुहाग ज्वैलर्स तक समस्त बायां भाग सुहाग ज्वैलर्स सी रोड़ सरदारपुरा थाना के सामने समस्त बायां भाग सी रोड़ पर पुलिस थाने के सामने सी रोड़ पर लुणकरण पुरोहित के सामने तक।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>सरदापुरा ए,बी,सी,रोड़ के बीच की गलियां बच्छराज जी का बाग, चिल्ड्रन पार्क के आस-पास का क्षेत्र,हेमू चौराहा। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे</p>
<p>वार्ड 51 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9833</p>	<p>सीमा</p> <p>जालोरी गेट चौराह से सिंवाची गेट चौराहा तक शहर परकोटे से होते हुए ओम सिमेन्ट, सिंवाची गेट चौराहे से कोहिनुर पांचवी रोड़ तक समस्त बाया भाग, पांचवी रोड़ चौराह से सरदारपुरा ए रोड़ जंक्शन तक बाया भाग, ए रोड़ पर शनिश्चर जी का थान जा रही रोड़ जंक्शन से बी रोड़ सरदापुरा वल्लभ साईकल स्टोर तक बाया भाग, बी रोड़ सरदारपुरा वल्लभ साईकल स्टोर से गिरधारी सब्जी तक बाया भाग, गिरधारी सब्जी से मालियो की गली होते हुए सी.एच.एम.ओ. कार्यालय के पास एल.के. पुरोहित के सामने गली का बाया भाग होते हूये मुखय सी रोड़ सरदापुरा, मुखय सी रोड़ सरदारपुरा पर पारख भवन, थार हैण्डलूम होते हुए महावीर कॉम्प्लेक्स होते हुए उच्च न्यायालय के जज साहब के निवास के सामने रेल्वे स्टेशन जाने वाली रोड़ के टी जंक्शन तक, टी जंक्शन से ओलम्पिक चौराहा होते हुए जालोरी गेट तक बाया भाग।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>समस्त ईदगाह, गुलाब बागा, हाकम बाग, गोल बिलडिंग, माधोबाग, बखतावरमल जी का बाग, नवल हरिजन बस्ती, कोहिनुर (पुराना) के सामने का क्षेत्र, उम्मेद अस्पताल। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 52 नगर निगम जोधपुर</p>	<p>सीमा</p>

<p>कुल जनसंख्या 8750</p>	<p>बालबाड़ी स्कूल के बाये तरफ से होते हुए श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास का मकान होते हुए भोली बाई मंदिर से एस.बी.आई. बैंक के बाये ओर से होते हुए खाण्डा फलसा गौड़ पान भण्डार कोनर से सिवान्ची गेट की ओर जाने वाली रोड के बाये ओर का हिस्सा लेते हुए मूलियों की चौकी से सिवान्ची गेट सब्जी मंडी होते हुए राजपुरोहितो का नौहरा से मनोहर जी का अस्पताल होते हुए बाये ओर से इन्द्रा चौक शशि व्यास जी का मकान के पीछे से विरु सिटी जीम का बाया भाग होते हुए कैलाश डेयरी होते हुए बालवाड़ी स्कूल तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>माहेदगवरी न्याति नोहरे के आस पास का क्षेत्र, भोली बाई मंदिर, खिड़कियो का बास, नसरानी वालो का घर नई गली, मालियो की गली, सिन्धियों की मस्जिद, मूलियों की चौकी खिड़कियो का बास, बुटालियो का बास, सिन्धियों का बास, मगलियो की गली, पीरजी की गली, गोरियो की गली, सुरपुरा हवेली मनोहर जी का अस्पताल, अरोडा खत्री गली, घाची समाज स्कूल, कुंज गली, कालु चक्की । उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 53 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9171</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>मूलजी की होटल के सामने से बोम्बे साडीज सर्राफा बाजार होने हुए आडा बाजार होते हुए मुख्य खाण्डा फलसा रोड़ होते हुए पीपलेशवर महोदव मन्दिर से एस.बी.आई. खाण्डा फलसा के सामने का समस्त बांया भाग होते हुए हनुमान चौक, सुमेर पुद्गिटकर स्कूल होते हुए पुखराज जी बोहरा के मकान का बांया भाग होते हुए बनावतों की गली होते हुए राजदान के मकान का बांया भाग होते हुए कबंतरों का चौक होते हुए हटडियों का चौक तक का बांया भाग होते हुए पुगलपाड़ा मुख्य रोड़ होते हुए मुलजी की होटल के सामने तक का समस्त बांया भाग।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>बोहरों की पोल, लखजी की पोल, नाथावतों का चौक, भीमजी का मौहल्ला, बनियाबाड़ा, दर्जियों का चौक, तापडियों की गली, हटडियों का चौक, राठियों की पोल, भजन चौकी, जालप</p>

	<p>मौहल्ला, हाथी चौक, बनावतों की गली, पुद्गिटकर स्कूल, हनुमान चौक, तापी बावडी, गधियों की गली, सर्राफा बाजार मुख्य सड़क।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 54 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8738</p>	<p>सीमा</p> <p>रानीसर से चांदबावडी से गूदि का मौहल्ल का बायां भाग से होते हुए नवचौकिया से नार्यों के बड़ तक का बाया भाग, नार्यों के बड़ से बालकिशनलाल मन्दिर के सामने प्याउ तक का बाया भाग होते हुए भैरुजी मिस्थान भंडार तक का बाया भाग से बाम्बे साडी होते हुए मूलजी की होटल तक का बाया भाग होते हुए मिर्ची बाजार का बायां भाग होते हुए सिटी पुलिस चौराहा तक का बायां भाग से राम गली होते हुए नार्यों की गुफा तक का बायां भाग से पंचमुखा बालाजी तक की बायां भाग एवं पंचमुखा बालाजी से किले की तलहटी होते हुए रानीसर तालाब का बायां भाग वाया मेहरानगढ किला।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>रानीसर,चांदबावडी,गूदीं का मौहल्ला जोशियो की पोल, बोडों की घाटी, नवचौकिया, टाटीयों की पोल, नथावतों की बारी, नार्यों का बड़, आसोप की पोल, जूनी मण्डी, सिंह पोल, महावीर पोल, भैरुजी की गली, गंगशयामजी का मंदिर, सेवकों की गली, डोडीदारों का मौहल्ला, कायस्थों का मौहल्ला, बेनागढ, सुनारों का बास, गाधियों की गली, चाचा गली, सुनारों की घाटी, नृसिंहदास जी का मन्दिर, महाप्रभु का मंदिर, नाईयों की गुफा,लूणावतों की गली, मेहरानगढ दुर्ग।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 55 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11964</p>	<p>सीमा</p> <p>सिटी पुलिस थाने से दाये भाग किले की तहलटी के दाये ओर उम्मेद चौक रोड दाये ओर सुथारो की गली होते हुए रफीकुल आवाम स्कूल का दाया भाग से मौहल्ला लायकान मस्जिद से दाये ओर का भाग मकराना मौहल्ला होते हुए दाया भाग माणक चौक से लखारा रोड मेहता मार्केट चित्रा</p>

	<p>से दाये ओर का हिस्सा होते हुए सिटी पुलिस थाना तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>मौहल्ला लायकान, कन्जरवेटीव लाईन, आचार्यो का बास, शेखो की पोल, गणेद्गा मार्ग, लखरा बाजार, तम्बाकु गली, मेहता मार्केट, दाधीच नौहरा, सूर्या कॉलोनी, गिड्डो की गली, नया बास, हरिजन बस्ती, सिटी पुलिस थाने के पीछे का हिस्सा वाला तिरपुरा सुन्दरी मंदिर, रामदेव गली, कटला बाजार, सुमेरमल मेड़तिया का मकान। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 56 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 12195</p>	<p>सीमा</p> <p>उम्मेद चौक राजदादीजी का नोहरा बाया भाग होते हुए सुथारो की गली बाया भाग रफीकुल आवाम स्कुल को छोड़ते हुए बाया भाग लायकान की मस्जिद के सामने का हिस्सा बाया भाग होते हुए मकराना मौहल्ला बाया भाग होते हुए माणक चौक रोड का बाया भाग, कोयले की पोल होते हुए अमरचौक तक बाया भाग, पाल हाउस से बाया भाग दो कोटो के बीच पन्ना निवास जैन भवन बाया भाग हाथीराम ओडा जब्बार साहब के निवास से बाया होते हुए महावतो की मस्जिद रोडर से महावीर प्याउ से भैरुजी मंदिर से बालाजी मंदिर का बाया भाग से राजमहल छोटी गलर्स स्कुल से अजय चौक का बाया भाग होते हुए उम्मेद चौक राजदादीजी के नौहरे तक का समस्त बाया भाग।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>जुना दारु का ठेका, तिलवासनी हवैली, हाथीराम जी का ओडा, कुम्हारो की गली, गुलाब सागर, दो कोटो के बीच, दाउ जी का मंदिर, नागौरी गेट रोड, गुलाब सागर के पास, मथलिया हाउस, दाउजी की पोल, कल्याणपुर की पोल, उम्मेद स्कुल के सामने, अजय चौक, बच्चा गली, गोपाल पोल, लोहारो की गली, शांतीपुरा, महिलाबाग अस्पताल, राजदादीजी का नौहरा, चौहाने का नौहरा, आर्य समाज मंदिर, गाछो की पोल, कैरु की पोल, रास की हवैली, तेलियो की गली, मच्छु खां की हवैली, महावतो की मस्जिद के पीछे का क्षेत्र, महावतो की मस्जिद। सीमा में स्थित उपरोक्त सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड</p>

	के क्षेत्र होंगे।
<p>वार्ड 57 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11042</p>	<p>सीमा</p> <p>राम जी की दुकान गोपाल भवन के सामने सुनार की दुकान से ऊन का गोदाम दाया भाग से सत्संग भवन असथल होते हुए अयुब केमखानी मंदिर के पास से नया तालाब का दाया भाग से मालियो की बगेची चौराहा से नीचे स्कुल से मोतीकुण्ड से शहर पन्नाह कोट की दीवार से होते हुए गांऊ घाट रोड से पी.एच.डी. रोड होते हुए ऊटेदगवर महादेव जी का मंदिर का दाया भाग से अशोक गिरी की पोल से मखतुरमल जी की हवेली के सामने तक अरोडा किराणा स्टोर के कार्नर से महावतो की मस्जिद से भैरुजी मंदिर होते हुए गोपाल भवन तक का समस्त दाया भाग।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>सत्संग भवन, बेलदारों की गली, नया तालाब, संजय बस्ती, अंधेदगवर ब्रह्मदेव मन्दिर, दिनाचारे की गली, शुभ गया का नोहरा, भैरुजी का मन्दिर, शम्भू भवन, नील कण्ठ महादेव मन्दिर, जोगियों की गली, सज्जन भवन, भुजो की गली, सिंधीयों की पोल फौजदारों की गली, बाबा रामदेव मन्दिर, फतेह सागर रोड़, सैनिक गली, बजरी की आखरी वाली गली, नया तालाब जालोरीयों का बास, खानिया राम चौक, मियों की मस्जिद, अधरशिला के सामने मोती कुण्ड, फतेह सागर ओटा, नागौरी गेट रोड़ का पूर्वी हिस्सा, फतेह सागर के पास गोपाल भवन, भीड़ भजन बालाजी मंदिर के आस-पास का समस्त क्षेत्र आदि।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 58 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 12137</p>	<p>सीमा</p> <p>फतेहसागर गऊघाट से मेड़ती गेट पन्ना कोट का पश्चिमी हिस्सा बंबा बारी से दाया भाग से गुलजार पुरा से दाया भाग से हनुमान भाखरी से दाया भाग बरकत साहब की हवेली होते हुए हाथीराम ओडा से दाया भाग फतेह सागर रोड से दाया भाग बक्तुरमुल सिंघवी सा की हवेली होते हुए फतेहसागर गऊघाट क्षेत्रफल।</p>

	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>बेलदारो का बास कुचामन हवेली का क्षेत्र उपरला बास लोहारो की मस्जिद बम्बा मौहल्ला गुलजार पुरा के खालियो की गली, गुन्दियो की गली, छोटी हवेली, बम्बा छोटी मस्जिद, दस दुटियों का चौक, बम्बा बड़ी मस्जिद लतिफ शाहर बाबा की दरगाह बकरी गली माउडो की चौक मोटर गैरेज वहिद पार्क के आस पास का हिस्सा। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 59 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8522</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>जवाहर खाना भिस्तियो की मस्जिद से नई सड़क की ओर की भाखरी का बाया भाग मोहम्मदी मस्जिद के सामने होते हुए हनुमान जी की भाखरी से बाया भाग हारुन जी के मकान से नई सड़क बाया भाग से मच्छी गली की ओर हाथीराम का ओडा बाया भाग साईकिल मार्केट की ओर पन्ना निवास दाया भाग से घण्टाघर पुलिस चौकी गाछा बाजार बाया भाग भण्डावत हाउस माणक चौक से लुक्कड़ भवन तैलियो की गली, तम्बाकु गली के बहार बाया हिस्सा कंदोई बाजार मोठु जलेबी नूर मार्केट बाया भाग होते हुए गोरिन्दा बावड़ी से नारायणदास बिल्डिंग बाटा तिराहा से बाया भाग जवाहर खाना रोड से भिस्तीयों की मस्जिद नई सड़क तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>पोकरण की हवेली, टेलर गली, सम्दड़िया भवन, मोती बाई का मंदिर, घासमण्डी, लोहारो का चौक, नुरानी कॉलोनी, चण्डावल हवेली, भैया की पोल, मोचियो की गली, पान गली, संकड़ी गली, गिरदी कोट, मोचियो की गली, पला गली, रंगरेजो का नोहरा, खत्रियो का नोहरा, जवाहर खना, साईकल मार्केट, अरुण कॉलोज का क्षेत्र, गंगा निवास, बंशी निवास उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 60 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8491</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>सोजती गेट के अन्दर महादेव मन्दिर, पुराना नगर निगम भवन, से बायाँ भाग आयरन हार्डवेयर हाऊस, हरियादाणा की</p>

	<p>हवेली, दासपा हाऊस, तेलियों की मस्जिद, जोहरमल अमरमल, गोरिंदा बावड़ी के सामने सूर्य मन्दिर, मांगीचन्द भण्डारी से कंदोई बाजार चौराहा बायाँ भाग रिद्धी-सिद्धी कलेक्सन, धनगेले की दुकान से सादो की गली बाया भाग, रमजान अली रंगरेज के मकान से होते हुए मोहम्मद यासीन के मकान की तरफ, मरडिया अस्पताल के सामने मोती चौक से बायाँ भाग राम भवन, मुरली मनोहर मंदिर बायाँ भाग, सुनारों का न्याति नोहरे के सामने वाला हिस्सा, एस,आर, ज्वैलर्स से बायाँ भाग, साड़ी का मंदिर बायाँ भाग, आमली का बास सीसी कॉम्पलेक्स, अयोध्या मेन्शन, कोलराज जी के बेरे के सामने का हिस्सा श्री जोधपुर ड्राई कर्टींग मोदी हाऊस बायाँ भाग, घोड़ा का चौक आटा चक्की, किशन एम्पलीफायर बालिया हाऊस बायाँ भाग, अहमद बक्श सिंधी के मकान से होते हुए महादेव मंदिर सोजती गेट तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>कंटालिया सिनेमा के आगे व पिछे का क्षेत्र, बरकाणा हाऊस, मेड़ती सिलावटों का बास, घोड़ा को चौक का जाता हुआ क्षेत्र, मोहम्मद चौक, काली टंकी, मदरसा की गली, तेलियों का बास, रामदेव गली, गज़दरों की गली, महावीर मार्केट, कुरैद्गीयों का मोहल्ला, सिलावटों की मस्जिद, बडेर की मस्जिद, त्रिपोलियां से मोती चौक का रास्ता, डबकरों की गली, काज़ीपाड़ा, सुनारों का बास, होली का चौक, भैरूजी मंदिर, रावतो का बास, अबाबिल हॉटल के पीछे का क्षेत्र। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 61 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11016</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>साधों की गली बाया भाग होते हुए गोलियों की पोल नारायण स्वीट होम पान की दुकान पुगलपाड़ा बाया भाग हठडियों का चौक कबुतरों का चौक बाया भाग हनवन्त पुरा सुनारों का न्याति नोहरा बाया भाग बरडिया भवन मोती चौक बाया भाग बैण्ड मार्केट खापटा होते हुये सादो की गली के अन्दर के बाहर तक की सीमा।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>ईसाकिया स्कूल का क्षेत्र, नागौरी सिलावटो का बास, पुरा</p>

	<p>मौहल्ला, पेको का बास, मौहल्ला सौदागरान, मोती चौक, खापटा, बैण्ड मार्केट, गोलमदास जी की मस्जिद, फरासो का बगला, जाटाबास, गायों की गली, बडी चेतानीयों की गली, छंगानियों की गली, डाक्टर मानदास जी का पुश्तैनी मकान, खेरादियो का बास जैन थानक, हनवन्त पुरा, नीम गली क्षेत्र।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 62 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8984</p>	<p>सीमा</p> <p>घोड़ा के चौक कुम्भेश्वर महादेव मंदिर सेराजु किराणा स्टोर से बायां भाग होते हुए वर्धमान अस्पताल कोर्लाजी की बेरा से बायां भाग होते हुए चम्पलाल जी सुथार से बायां भाग सीसी कॉम्प्लेक्स के सामने का हिस्सा कैलाद्गा जी टाटिया सहाब के पुस्तैरी मकान के बायां भाग होते हुए सीधे कबूतरों का चौक से बायां भाग से पुराना पोस्ट ऑफिस से बालाजी का मंदिर नर्सिंगघड़ा के सामने नाज़र जी की बावड़ी का बाया भाग से अरोड़ा कॉलेज बायां भाग से बैंक ऑफ बड़ोदा होते हुए बालाजी के मंदिर के सामने डॉ. देवराज जी की पोल से रमेश बौराणा की पोल से विरू सिटी जीम का बाया भाग होते हुए सफिला वाल्मिकी बस्ती के दायां व बायां भाग भील बस्ती होते हुए जीनगर मार्केट मेहता सेल्स से बायीं ओर पप्पू मोजड़ी से गायत्री कम्प्यूटर से दया भवन इन्द्र चौक सामुदायिक भवन के आस-पास का क्षेत्र से बाहर आते हुए जालोरी गेट पुलिस चौकी के सामने बिजली घर से चांदसा तकिया रोड़ होते हुए बाईंजी तालाब बायां ओर होते हुए वर्द्धआश्रम निगम ऑफिस से महादेव मंदिर से घोड़ा चौक की तरफ से राजु किराणा स्टोर बालाजी का मंदिर।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>मेघवालॉ का बास, मदन पेन्टर, स्वामियों की गली, तेज सिंह जी की हवेली, भीस्तीयों का बास, जैन स्तानक, सोजतियां घांचियों का बास, बाईंजी तालाब खाड़ी, चाणोद हाऊस, बालरवा हाऊस, बा.सी.सै.स्कूल, बालूदा हवेली, रमेश दवे का मकान, राजधान मैनसन, सांवरियाँ पान के पीछे के क्षेत्र, नेहरु गली, चांदसा बिल्डींग, मेहता पोल, सरगरा गली, घांचियों का बास</p>

	<p>जालोरी गेट, सफिला हरिजन बस्ती, भील बस्ती नहर के आप-पास पन्ना हाऊस, रूई वाली गली, मोहन जी निम्बारक का मकान कबीर पंत आश्रम घांचियों की बगेची। उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 63 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 4254</p>	<p>सीमा</p> <p>जालोरी गेट से शहर पन्ना कोट होते हुए सोजती गेट लिंक रोड पी.एच.डी. कार्यालय के सामने बाईजी तालाब मस्जिद के पास से होते हुए बाईजी तालाब हरिजन बस्ती नवल आश्रम होते हुए राजदादीजी अस्पताल के पीछे से होकर सोजती गेट पोस्ट आफिस से सोजती गेट पुलिस चौकी तक समस्त बाया भाग, सोजती गेट रीया हाउस होते हुए दर्पण सिनेमा तक का समस्त बाया भाग, पुलिस कन्ट्रोल रूम को शामिल करते हुए गैलेक्सी होटल, बेरिया मौहल्ला आन्नद सिनेमा से स्टेशन, स्टेशन से रेल्वे लाईन के पश्चिम में रेल्वे गोदाम, रेल्वे कॉलानी, सांगी पेट्रोल पम्प होते हुए बिग बाजार तक, बिग बाजार से ओलम्पिक सिनेमा से गांधी अस्पताल को शामिल करते हुए जालोरी गेट तक समस्त दाया भाग।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>जालोरी गेट बारी, ओलम्पिक सिनेमा, सहकार भवन, जंसवन्त सराय, राज रणछोड दास जी का मंदिर, सोजती गेट, नवल आश्रम, हरिजन बस्ती, बाई जी का तालाब मस्जिद, राजदादीजी अस्पताल, चांदशाह तकिया, महात्मा गांधी अस्पताल, मुख्य रेल्वे स्टेशन पुलिस चौकी सोजती गेट चौराहा से नई सड़क, दर्पण सिनेमा, पुलिस कन्ट्रोल रूम से राजीव गांधी चौक, गैलक्सी होटल, चन्दनपुरी मठ, बेरिया, आन्नद सिनेमा पुरि तिराहा से स्टेशन तक, पुरी तिराहा से महात्मा गांधी अस्पताल से जालोरी गेट तक के समस्त भाग।</p> <p>उपरोक्त सीमा में स्थित सम्पूर्ण गली व मौहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 64 नगर निगम जोधपुर</p>	<p>सीमा</p>

<p>कुल जनसंख्या 7241</p>	<p>मोहनपुरा पुलिया से पुलिस लाईन मुख्य द्वार होते हुए भाटिया चौराहा, भाटिया चौराहा से सर्किट हाऊस चौराहा तक का बायाँ भाग, सर्किट हाऊस चौराहा से के.एन कॉलेज होते हुए रेल्वे पुल ब्रिज तक, रेल्वे पुल ब्रिज से के.एन चौराहा, उम्मेद क्लब तक का क्षेत्र सम्मिलित करते हुए खास बाग चौराहा तक का समस्त दायाँ व बायाँ भाग, भाटिया चौराहा से मुख्य रातानाड़ा रोड़ होते हुए सती माता मन्दिर से नयी लोको कॉलोनी गेट से सेन्द्रल जेल, सेन्द्रल जेल से मोहनपुरा पुलिया तक का समस्त क्षेत्र।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>मोहनपुरा, जसवंत कॉलेज, पुलिस लाईन स्कूल, हरिजन बस्ती, रातानाड़ा गंदा नाला, अजीत कॉलोनी, सूर्या अपार्टमेंट, सर्किट हाऊस चौराहा, बाल निकेतन स्कूल, एसपी ऑफिस, माहेश्वरी बगेची, ओएनजीसी ऑफिस, हनुवंत कॉलोनी, अग्रवाल बगेची, सुनारों की बगेची, पटेल नगर, एसआईसी क्वाटर, उम्मेद क्लब, सेन्द्रल जेल, लोको कॉलोनी।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 65 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9373</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>न्यू लोको कॉलोनी गेट से सती माता मन्दिर से मुख्य रातानाड़ा रोड़ होते हुए भाटी चौराहा से रातानाड़ा चौराहा से रातानाड़ा सब्जी मण्डी होते हुए खादी भण्डार होते हुए न्यू लोको कॉलोनी गेट तक समस्त दायाँ भाग।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>मैदान के पीछे टीमा राम स्कूल, लक्ष्मी निवास, द्गिाव मन्दिर रोड़, गोरधन भवन, भाटी चौराहा, गंदी नाला, कसाई गली, गंदा नाला के पास मस्जिद, सुभाद्गा सी रोड़, शिव मन्दिर के सामने नयी लोको, सुभाद्गा चौक, मालियों की गली, गोर्वधन कॉलोनी, धोकल सिंह बिल्डिंग, नृसिंह कॉलोनी, प्रताप कॉलोनी, मान सिंह जी का बंगला, मेघवंशी का नोहरा, देव भवन, भास्कर चौराहा से लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, सिंधी धर्मशाला की गली, गुणवती हाऊस, होद वाली गली,</p>

	<p>डॉक्टर महमूद वाली गली, कृद्गण मन्दिर रोड़, शिव मन्दिर, पुराना शिक्षा विभाग आदि।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 66 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8917</p>	<p>सीमा</p> <p>रातानाडा पांच बत्ती चौराहे से इन्द्रा कॉलोनी राम मिष्ठान भण्डार के पास नाले के सहारे होते हुए बाबा रामदेव मन्दिर से जगदीश चौधरी के मकान तक समस्त दाया भाग। मुख्य एयरपोर्ट रोड से जसवन्तसिंह जसोल व मगेन्द्रसिंह जी फार्म हाउस के बीच सडक से होते हुए गजसिंह पोलो ग्राउण्ड से आर्मी एरिया से होते हुए शिकारगढ रोड से होते हुए होटल इण्डाना तिराहे से इण्डाना होटल होते हुए विनायकीया जेडीए सामुदायिक भवन तक सडक के दानों तरफ का भाग। इन्द्रा कॉलोनी जगदीश चौधरी एयरपोर्ट रोड होते हुए ऑफिसर मैश से पांच बत्ती सर्कल तक का समस्त दाया भाग</p> <p>क्षेत्र</p> <p>पांच बत्ती कॉलोनी, कस्टम कॉलोनी इन्द्रा कॉलोनी, इन्द्रा कॉलोनी विस्तार एवं शारदा पार्क, सरप्रताप कॉलोनी, गौरा हाउस, पाबुपुरा, विनायकीया, जोगियों की बस्ती।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 67 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9206</p>	<p>सीमा</p> <p>इन्द्रा कॉलोनी राम मिष्ठान भण्डार के पास नाले के साथ-य एयरपोर्ट रोड साथ होते हुए पठानी चौराहे होते हुए मुख जसवंतसिंह जसोल वमगेन्द्रसिंहजी के फार्म हाउस के बीच की सडक से होते हुए गजसिंह पोलो ग्राउण्ड से आर्मी एरिया से होते हुए शिकारगढ रोड से डिफेन्स लेब चौराहा से पांच बत्ती चौराहा तक का समस्त बाया भाग।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>नेहरू कॉलोनी, सांसी बस्ती, हरिजन बस्ती, बग्गी खाना,</p>

	<p>डिफेन्स कॉलोनी सांसी बस्ती नाला।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 68 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 6202</p>	<p>सीमा</p> <p>मिलिट्री हॉस्पिटल से सर्किट हाउस चौराहा से सर्किट हाउस रोड होते हुए भाटी चौराहा, रातानाडा चौराहा से होते हुए पांच बत्ती चौराहे से डिफेन्स लेब चौराहा होते हुए उम्मेद हेरिटेज चौराह मोड से (उम्मेद हैरिटेज को सम्मलित करते हुए) उम्मेद भवन के मुख्य द्वार से मिलिट्री हॉस्पिटल तक का समस्त बांया भाग।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>मिलिट्री हॉस्पिटल, गणेश पुरा, राजीव गांधी कॉलोनी ईस्ट पटेल नगर, गणेश मंदिर , उम्मेद हेरिटेज, सुभाष कॉलोनी, एमईएस ऑफिसर मैस, जयनारायण व्यास छात्रावास, रातानाडा बाजार, कृष्णा नगर, धन्ला हत्था।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 69 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11380</p>	<p>सीमा</p> <p>रसाला ब्रीज पावटा सब्जी मण्डी, हाथी बावडी से राईका बाग पुलिया से सर्किट हाउस होते हुए बैंक कॉलोनी सम्मलित करते हुए मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने से होते हुए रसाला ब्रीज तक का समस्त बायां भाग (रसाला रोड, पृथ्वीपुरा, हरिजन बस्ती, व लान्सन लाईन) को सम्मलित करते हुए।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>हाथी बावडी, पावटा सब्जी मण्डी, रोडवेज डिपो, पावटा ब्रीज बाबा रामदेव कॉलोनी, सर्किट हाउस के पीछे का क्षेत्र, बैंक कॉलोनी, राजमाता स्कूल, किंग्स हॉस्पिटल, हनुवंत विहार, हनुवंत कॉलोनी, होटल बच्चन निवास के पीछे पुराना रसोडा, बैण्ड लाईन ए व बी, अक्षय होटल व सामने का क्षेत्र, पुरानी पुलिस लाईन, लाल बंगला, राईका बाग, हरिजन बस्ती पृथ्वीपुरा, राईकाबाग रेलवे फाटक, रसाला रोड ओवर ब्रीज के</p>

	<p>नीचे का क्षेत्र, राईका ओवर ब्रीज के पास का क्षेत्र, प्रजापत कॉलोनी, रोडवेज बस डिपो, सब्जी मण्डी, राईका बाग रेलवे कॉलोनी, राईका बाग चौराहा, राईका बाग हरिजन बस्ती, लालजी हैण्डीक्राफ्ट, बनाड हाउस</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 70 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10009</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>बलदेवराम मिर्धा चौराहे से शिपहाउस रोड (धर्मनारायणजी का हत्था, लोहार कॉलोनी, प्रथम पोलो को सम्मलित करते हुए) का पूर्वी हिस्सा, सरगरा कॉलोनी, जटिया कॉलोनी को सम्मलित करते हुए शहर पनाह कोट से नागौरी गेट चौराया से ज्योति फूले चौराहा का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, ज्योति बा फूले चौराहा से महामन्दिर चौराहा से पावटा सी रोड तक का पूर्वी व पश्चिमी हिस्सा (टाक भवन, रामद्वारा को सम्मलित करते हुए) पावटा सी रोड रेनबो हाउस होते हुए रेलवे लाईन के सहारे-सहारे (मानजी का हत्था को शामिल करते हुए) रसाला रोड रेलवे फाटक तक का पश्चिमी हिस्सा, रसाला रेलवे फाटक से पावटा चौराहा होते हुए बलदेव राम मिर्धा चौराहा तक का उत्तरी हिस्सा।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>लोहार कॉलोनी, धर्मनारायणजी का हत्था, प्रथम पोलो, द्वितीय पोलो, अम्बिका नगर, सरगरा कॉलोनी, जटिया कॉलोनी, पीलवा हाउस, सुमेर स्कूल के पीछे का क्षेत्र, आयकर कॉलोनी, रेनबो हाउस, मानजी का हत्था, दीप मार्ग, काबरा स्कूल पावटा सैटेलाईट अस्पताल।</p> <p style="text-align: right;">(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 71 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9975</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>उम्मेद स्टेडियम से मुख्य हाईकोर्ट रोड, पावटा चौराहा से श्री बलदेवराम मिर्धा चौराया से, उदयमन्दिर पुलिस थाना होते हुए मेडती गेट से शहर पनाह कोटे होते हुए वापस उम्मेद स्टेडियम तक का समस्त बांया भाग।</p>

	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>उम्मेद स्टेडियम, स्टेडियम सिनेमा, पब्लिक पार्क, होईकोट, कलेक्ट्रेट, उदयमन्दिर थाना, मालियों की गली, नैनीबाई मन्दिर, उदयमन्दिर खापटा, धानमण्डी, खापटा, मेडती गेट के बाहर, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर मेडती गेट के बाहर, खारिया कुंआ, घाचियों की गली, गब्बू खां का चौक।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 72 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9117</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>सोजती गेट के बाहर शहर पनाह कोटे होते हुए बम्बा बारी तक, बम्बा बारी से शहर पनाह का उत्तरीहिस्सा। पूर्वी-राजीव गांधी वाचनालय के सामने होते हुए थलियों बास, सोजती गेट सडक का दक्षिणी हिस्सा, थलियों का बास, सोजती गेट सडक का पूर्वी हिस्सा।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>बम्बा बारी, गुलजारपुरा, पातरियों का बास, खानिया कोट, प्यारे मियां का चौक, नई सडक, चमनपुरा, कुम्हारों का ढाल, थलियों का बास, रामजी का बाडा, कविराजजी का बाडा, घासमण्डी रोड, भील बस्ती, चारभुजा टोकीज।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 73 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 14249</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>मेडती गेट से बलदेराम मिर्धा चौराहा तक का उत्तरी भाग, बलदेव मिर्धा चौराहा से शिपहाउस का पश्चिमी भाग, शिप हाउस, नया तालाब जाने वाली सडक व शहर पनाह कोट का दक्षिण हिस्सा, नया तालाब शहर पनाह कोटे होते हुए मेडती गेट का पूर्वी हिस्सा।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>उदयमन्दिर आसन, भित्तियों का बास, राजस्थान पत्रिका का</p>

	<p>पुराना कार्यालय, उदयमन्दिर हरिजन बस्ती, भारत कॉलोनी, शिप हाउस रोड, गायों की फाटक, करबला कॉलोनी, आनंद विला मौहल्ला, तोप खाना, भिशितियों का मौहल्ला, अशरफ मंजिल, शाहों का मौहल्ला, चईलों की गली, गुलाब नेहरू कॉलोनी।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 74 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8719</p>	<p>सीमा</p> <p>नागौरी गेट पुलिस चौकी होते हुए, सिन्धी साहबजादो का मौहल्ला सम्मलित करते हुवे किला रोड, बेलदार बस्ती लेते हुए समाज कल्याण छात्रावास बागर स्कूल से बागर क्षेत्र का बाया भाग, आराधना एकेडमी स्कूल होते हुए पीपलेश्वर महादेव मन्दिर से अजय चौक होते हुए भैरूजी की बगेची होते हुए महावीर प्याउ, गोपाल भवन, राज क्लिनिक का उत्तरी हिस्सा, राज क्लिनिक से बिशनपुरा होते हुए नया तालाब, भील बस्ती को सम्मलित करते हुए शहर पनाह कोर्ट के सहारे होते हुए नागौरी गेट पुलिस चौकी (.भीतरी क्षेत्र) तक का क्षेत्र।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>महावीर प्याऊ, गोपाल भवन, तैलियों का बास, सिन्धी भुट्टो का बास, सिन्धी साहबजादो का बास, विशनपुरा, नयातालाब, उन गोदाम, भील बस्ती, बागर वैदिक कन्या पाठशाला, के आसपास का क्षेत्र पुलिस चौकी के सामने, रावत बिल्डिंग, लाल भवन, बेलदार बस्ती, सिन्धियों की पोल, विजय चौक।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 75 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10246</p>	<p>सीमा</p> <p>गोलनाडी, पूरबियों का बास, कृष्णा चौक होते हुए उम्मेद चौक चौराहे का पूर्वी हिस्सा । उम्मेद चौक से अजय चौक का उत्तरी हिस्सा। अजय चौक से पीपलेश्वर महादेव मन्दिर के सामने से खिचियों के नोहरों को सम्मलित करते हुए दक्षिणी हिस्सा। बागर चौक से राम द्वारा गली, पीपली चौक, सीताराम बेबी पार्क होते हुए समाज कल्याण छात्रावास</p>

	<p>से बागर बेरी धासागर को सम्मिलित करते हुए शहर पनाह कोट का दक्षिण पश्चिम हिस्सा। शहर पनाह कोट से देव कुण्ड होते हुए गोलनाडी तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>बागर मैदान, जसवंत थडे की घाटी, खेजडी चौक, रावजी की हवेली, मेहरों का बास, नागोरियों का बास, बडलों का चौक, लाडनू हाउस, गोलनाडी ब्राह्मणों की गली, उम्मेद चौक, पूरबीयों का बास, अजय चौक, खिचियों की हवेली, बागर रामद्वारा गली, पीपली गली, ब्रह्मगिवाले मन्दिर सीताराम बेबी पार्क के पीछे वैदिक कन्या सीस्कूल .सै., समाज कल्याण कन्या छात्रावास।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 76 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10412</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>किला रोड, कलाल कॉलोनी से बी स्कीम कॉलोनी कागडी नहर से कागडी नहर के किनारे किनारे शहर पनाह कोटे होते हुए नागौरी गेट चौराहा, छीपा कॉलोनी, शीलता माता रोड सबरी वाटिका मोड से कागडी नहर देवकुण्ड पहाडी से विश्वकर्मा मन्दिर बकरियों का चौक, झाडू बस्ती होते हुए कागडी से क्रेसर वाली रोड से देव कुण्ड पहाडी का समस्त क्षेत्र।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>कलाल कॉलोनी गली नं .1 से 11, कलाल कॉलोनी बी स्कीम, नागौरी गेट छीपा कॉलोनी, कागा पुलिस चौकी के सामने, भील बस्ती, विश्वकर्मा मन्दिर कागा कागडी, बकरियों का चौक, झाडू वाली बस्ती कागा क्रेसर, शीलता माता रोड।</p> <p>(नोट:उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं - (मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 77 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 7541</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>कागा सबरी वाटिका से बाये जाकर पार्षद सायरीदेवी के मकान के आगे से हाते हुए दाये मुडकर मेघवाल बस्ती, को</p>

	<p>सम्मलित करते हुए जाट शमशान के सामने मुख्य सडक कागा होते हुए दशनाम गोस्वामी शमशान के पीछे वाल्मीकी शमशान से होते हुए हरिजन बस्ती व मेघवाल बस्ती को सम्मलित करते हुए सेवा सदन स्कूल मुख्य सडक से राम बाग पुलिया में नहर होते हुए मेघवाल बस्ती गली नं. 3 से होते हुए नागौरी गेट कागा सडक तक ।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>नागौरी गेट, मेघवाल बस्ती, गली नं. 1, 2, 3, हरिजन बस्ती, कागा मेघवाल बस्ती (सेवा सदन स्कूल के सामने) सबरी वाटिका के पीछे मेघवाल बस्ती, कागा पुलिस चौकी उत्तम आश्रम</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 78 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 7001</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>राम मौहल्ला से ज्योति बा फुले पार्क होते हुए मुख्य मण्डोर रोड जटिया रेगर समाज सामुदायिक भवन होते हुए चामुण्डा कॉलोनी धोबी घाटी, रामगढी छात्रावास से शीतला माता मन्दिर पहाडियों तक।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>राम मौहल्ला, दामोदर कॉलोनी, लखजी का हत्था, कागा स्कीम, शीलता माता मन्दिर, हैडपम्प की गली, सेवासदन स्कूल, रामबाग स्कीम, कागा दाण्डी, रामा की प्याउ, मिरासी कॉलोनी, इन्द्रा कॉलोनी, चामुण्डा कॉलोनी, धोबी घाट</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 79 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 5490</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>मुख्य मण्डोर रोड हनुमान कॉलोनी, जनता कॉलोनी होते हुए मगराजजी का टांका पहाडगंज प्रथम नरपत पेट्रोल पम्प तक की कॉलोनियों के पीछे पहाडी तक।</p>

	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>जनता कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, मगराजजी का टांका, मुस्लिम बस्ती, बावरी बस्ती, पहाडगंज प्रथम, आरपीटीसी क्वार्टर, पीपली चोक।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 80 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10726</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क से महामन्दिर प्रथम पोल होते हुए वीरेन्द्र जी का मकान गहलोतों का बास से बाया मुडते हुए कृपा शंकर जोशी के मकान से दिपाशंकरजी जोशी के मकान मानसागर पश्चिम पाल होते हुए लालजी कैम्पर भील बस्ती के मकान से रोजगार कार्यालय की गली होते हुए ज्ञानचंद चन्देल के मकान शिवनगर से शांतिलाल चन्देल के मकान के आगे नाले के पास प्रथम गली देव साहब के मकान से आईस फैक्ट्री रूपनगर होते हुए हरिजन बस्ती के अन्दर से होते हुए भदवासिया मैन रोड से भदवासिया फुट मण्डी होते हुए जीरा मण्डी होते हुए, विजयाराजे सिन्धिया चौराहा होते हुए कृषि चौराहा से महामन्दिर चौराहा तक के समस्त बाया भाग</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क, महामन्दिर प्रथम पोल, मारवाड नगर, त्रिभुवनजी का हत्था, भदवासिया रेलवे फाटक, भदवासिया रोडवेज डिपो, भदवासिया फुट मण्डी, खेतानाडी, माहेश्वरी कॉलोनी, बंजारा बस्ती, ग्वारिया बस्ती, जगजीवनराम कॉलोनी, सांसी बस्ती, हरिजन बस्ती, की दो गलियां, शिवनगर का कुछ भाग, वेदों का बास, तातेडों का बास, खटिकों का बास, दडा बास, गहलातों का बास, कुम्भटों का बास, धानमण्डी, कांकरियों की पोल, फिलसों का बास।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 81 नगर निगम जोधपुर</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p>

<p>कुल जनसंख्या 10726</p>	<p>महामन्दिर दुसरी पोल से पहले विरेन्द्रजी का मकान, गहलोतों का बास से शुरू होकर कृपा शंकर जी जोशी से दिपाशंकर जी जोशी मानसागर पश्चिम पाल होते हुए लालजी कैम्पर भील बस्ती के मकान से रोजगार कार्यालय होते हुए ज्ञानचंद चन्देल शिवनगर होते हुए शान्तिलाल चन्देल के मकान के आगे नाले के पास प्रथम गली दवे साहब के मकान से आईस फैक्ट्री रूपनगर होते हुए मेघवाल बगेची से बडला रोड से होते हुए दाधीच नगर ब्लाक नं .04 के पास आरके बद्रस के पास वाली गली से श्री देवकिशन . लाहोटी के मकान से आगे से दाये मुड़कर जैन उपासरा होते हुए राजीव नगर डी पार्क के आगे से होकर सत्यनारायण मनीहार के मकान से बाये मुड़कर तेजा कॉलोनी होते हुये रामनगर पार्क के आगे से होते हुये नाले के पास से होकर जांगीड़ टीम्बर से बडला रोड होते हुये आरगैस .ओ.टी. गौदाम रोड से भगवान नगर के आगे से दाए मुड़कर आरटीओ रोड से बाबू लक्ष्मणसिंह चौराहे से महामन्दिर तिसरी पोल से दुसरी पोल का समस्त दाया भाग</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>सोनारों का बास, ब्रहमपुरी, मानसागर पश्चिम पाल, मानसागर की 7 गलियां, मण्डोरियों गेट, आदर्श कॉलोनी, भील बस्ती, शिवनगर का आंशिक भाग, रूपनगर व रूपाबाई का जाव, शिवशक्ति नगर गली नं .1 से 6, शिवपुरी, महावीर नगर, दाधिचनगर, महादेवनगर, सूर्यनगर, राजीव नगर सी, राजीव नगर डी का आंशिक भाग, ओमनगर, वीरतेजा कॉलोनी बी, रामनगर ए, खोपरा फैक्ट्री, राजीव नगर ए एवं बी, भगवाननगर।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 82 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10291</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>पावटा सी रोड अण्डर ब्रीज से आकाशवाणी होते हुए विकास कॉलोनी गली नं .4 का दाया भाग। महामन्दिर तिसरी पोल शहर पनाह कोट से दुसरी पोल, प्रथम पोल से महामन्दिर पुलिस थाने के पास रेलवे फाटक तक का बाया भाग।</p>

	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>आकाशवाणी, घांचीयों का बास, मेघवालों का बास, महामन्दिर पुलिस थाना, हेमसिंहजी का कटला, धारिवालों का बास, नया बास, धानमण्डी, जाटा बास, अशोक नगर, नाथ सागर जाव, पावटा सी रोड की गलियों, इमरतिया बेरा, विकास कॉलोनी, इनकम टेक्स कॉलोनी, जूनी बागर, मेघवालों का बास तिसरी पोल, पाली बाजार, धानमण्डी, अरिहन्त नगर।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 83 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 12938</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>पावटा सी रोड, शक्तिनगर गली नं .1 के सामने से आर्य समाज आकाशवाणी तक का दक्षिणी भाग। कालवी प्याऊ फाटक से बीजेएस गली नं .11 होते हुए पावटा बी रोड का समस्त पश्चिमी भाग। पावटा सी रोड बीजेएस गली नं .11 से टयूब वेल चौराहा तक का दक्षिणी भाग रेलवे लाईन तक टयूब वेल चौराहा से जैन कॉलोनी होते हुए दुर्गादास कॉलोनी तिराहे तक दक्षिणी भाग। पावटा बी रोड अण्डर ब्रीज से जालम विलास पोल के आगे से दुर्गादास कॉलोनी तिराहा से पावटा सी रोड तक सडक के दानों तरफ का भाग (लाल मैदान, राजपूत छात्रावास, जालम विलास को शामिल करते हुए)</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>आकाशवाणी रेडियो कॉलोनी, आर्य समाज, लाल मैदान स्कूल, राजपूत सभा भवन, आयकर कार्यालय ,रापावटा .वि.प्रा.उ., जालम विलास, समर्थ नगर, लक्ष्मीनगर, वीर दुर्गादास कॉलेनी, जैन कॉलोनी, जालमसिंह हत्था, गांधीपुरा, पशु चिकित्सालय, मांगुसिंह राजवी पार्क, मोहन नगर ए व बी, वीर दुर्गादास पार्क का समस्त क्षेत्र।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 84 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8809</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>महामन्दिर तिसरी पोल शहर पनाह कोट से शक्तिनगर गली नं .1 से बाबू लक्ष्मणसिंह चौराहा से रूपनगर गली नं .</p>

	<p>(कालवी प्याऊ से आने वाली रोड) से पावटा सी रोड पर से हनुवंत बी 11 नं. गली से पावटा बी रोड तक, बी रोड से ट्यूबेल चौराहा से लक्ष्मीनगर 2 नं. पार्क के एरिये को सम्मलित करते हुए शक्तिनगर गली नं. 1 के सामने सी रोड तक का समस्त दायां भाग।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>शक्ति नगर गली नं .1 से 9, हनुवंत ए व बी के 11 नं . गली तक, रूपनगर की कुछ क्षेत्र एवं महामन्दिर (शिकां) तिसरी पोल के बाहर जैन कॉलोनी</p> <p>नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 85 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 7434</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>पावटा बी रोड, हनुवंत बी 11 नम्बर गली में कालवी प्याऊ फाटक से अजमेर रोड से गजसिंह कॉलोनी से नट बस्ती के अन्दर फाटक से जेडएस ए व बी का सम्पूर्ण एरिया को सम्मलित करते हुए आरटीओ फाटक से आरटीओ ऑफिस रूपनगर की कुछ गलियां विद्यानगर का (आंशिक क्षेत्र) र्ण क्षेत्र।आंशिक क्षेत्र व मंगल विहार का सम्पू</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>न्यू बीजेएस कॉलोनी, हनुवत बी का आंशिक क्षेत्र, गजसिंह कॉलोनी, जेडएस ए व बी, मंगल विहार, रूपनगर की कुछ गलियां व विद्यानगर का आंशिक क्षेत्र एवं नट बस्ती का आंशिक क्षेत्र</p> <p style="text-align: right;">(नोट:-</p> <p>उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 86 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 5388</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>शिकारगढ रोड ईण्डाना होटल से दायां भाग व बाया भाग, बोधी इन्टरनेशनल स्कुल के आसपास का क्षेत्र-, शिकार गढ चौराहा मिनी मार्केट से नैनों की ढाणी, शिकारगढ, डिगाडी, नाला शिकारगढ तक का समस्त क्षेत्र।</p>

	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>कन्हैयानगर, शिकारगढ, नैनों की ढाणी, सैनिकपुरी प्रथम द्वितीय, अशोक विहार, घाचियों का डेरा, आचार्यों की ढाणी रघुवीर नगर, सम्राट नगर, भूमियों जी का थान, चाचा भवन रोड, शिव विहार कॉलोनी, रूप विहार भेरूजी नगर।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p style="text-align: center;">वार्ड 87 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 7804</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>एन.एच. ए आई (अजमेर रोड) अम्बेडकर कॉलोनी, प्रेमनगर अम्बेडकर कॉलोनी के पीछे को सम्मिलित करते हुए सारण नगर, ए बी सी, न्यू सारण नगर से निगम सीमा तक का क्षेत्र, डिगाडी चौराहा से डिगाडी अस्पताल से ब्राह्मणों का बास होते हुए डिगाडी नाले के सहारे होते हुए आर्मी एरिया तक का समस्त बांया भाग।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>अम्बेडकर कॉलोनी, अजमेर रोड सारण नगर ए बी व सी डिगाडी गांव, ब्राह्मणों का बास, प्रेमनगर, भील बस्ती, हरिजनों का बास, गोदारों का बास, रूपनगर, राजेन्द्र नगर, श्रीराम कॉलोनी, सारण नगर, जम्भेश्वर कॉलोनी, शिवविहार, धवेश नगर, हनुमान नगर, न्यू सारण नगर, विष्णु नगर, रेवत नगर।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p style="text-align: center;">वार्ड 88 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 7920</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>नट बस्ती फाटक से सारण नगर फाटक से मिरासी कॉलोनी तक का उत्तरी क्षेत्र। सारण नगर पुलिया से आरटीओ कि तरफ गली वाली 80 फिट रोड के दाया व बाया भाग। गुलाब नगर बिजली घर से श्रीराम नगर तक का दायां व बाया भाग, श्री रामनगर, रामनगर, गुलाब नगर, वकीलों का हत्था, विष्णु नगर, विद्यानगर का आंशिक क्षेत्र।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>नट बस्ती, सुल्तान नगर, कुसुम विहार, मिरासी कॉलेनी, शिकार बेरा व आरटीओ 80 फुट के दोनों तरफ दायां व बाया</p>

	<p>भाग, श्रीराम नगर, रूपनगर, गुलाब नगर, रामनगर, विष्णु नगर, विद्यानगर का आंशिक भाग।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 89 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 6005</p>	<p>सीमा</p> <p>हरिजन बस्ती शम्भु मन्दिर वाली गली से कोल्ड स्टोर होते हुए मेघ वाटिका के आगे से होते हुए बडला रोड से होते हुए दाधीच नगर ब्लाक न .04 के पास आरके बद्रर्स के पास . वाली गली से श्री देवकिशन लाहोटी के मकान के आगे से इकर जैन उपासरा होते हुए राजीव नगर डी पारदाये मुक् के आगे से होकर सत्यनारायण मनीहार के मकान से बाये मुड़कर तेजा कॉलोनी होते हुये रामनगर पार्क के आगे से होते हुये नाले के पास से होकर जांगीड़ टीम्बर से बडला रोड होते हुए आरटीओ गैस गोदाम वाली रोड से भदवासिया मैन रोड से भदवासिया पुलिये पर हरिजन बस्ती तक का समस्त बायां भाग</p> <p>क्षेत्र</p> <p>हरिजन बस्ती, बाबू लक्ष्मणसिंह कॉलोनी, तिलक नगर प्रथम, तिलक नगर द्वितीय, आर्य नगर, तिलग नगर तृतीय, गंगा विहार, राजीव नगर डी का आंशिक भाग, वीर तेजा कॉलोनी ए, रामनगर बी, दाधीच नगर का आंशिक भाग । उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं -नोटः) (मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 90 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11632</p>	<p>सीमा</p> <p>कृषि मण्डी छोटा गेट से लक्ष्मीनारायण मन्दिर होते हुए जोगमाया मन्दिर स विश्नोई रोड होते हुए रा .वि.प्रा.उ. मदेरणा कॉलोनी से कालका माताजी मंदिर से सोनिया स्कुल से श्रवण चौधरी केनकान से रामनिवास सुथार के मकान होते हुए पहाडी तक का उत्तरी क्षेत्र।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>मदेरणा कॉलोनी कच्ची बस्ती, पीपली चौक, कादरी चौक, सैन मन्दिर, कलाकारों का मौहल्ला, दरगाह चौक, कालका माता</p>

	<p>मन्दिर, शिशु निकेतन स्कुल, शमशान रोड, न्यू जाटा बास, पुरोहितों का बास, कुम्हारों का बास, रामद्वारा, तेलियों का बास,हरिजनबस्ती।</p> <p>(नोट:उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं - (त्र होंगे।मोहल्ले इस वार्ड के क्षे</p>
<p>वार्ड 91 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10342</p>	<p>सीमा</p> <p>कृषि मण्डी छोटे गेट से जीरा मण्डी हाते हुए भदवासिया पेट्रोल पम्प रेगर समाज शमशान होते हुए, विश्नोई रोड तक का समस्त बांया भाग लक्ष्मीनारायण मन्दिर से जोगमाया मन्दिर। विश्नोई रोड से रा मदेरणा कॉलोनी होते हुए .वि.मा. आईमाता मन्दिर से सोनिया स्कुल से श्रवण चौधरी जी के मकान से होते हुए रामनिवास सुथारजी सीए के मकान से होते हुए अशोक कॉलोनी से पहाडी से सहारे सहारे होते हुए किर्तीनगर हुडकों क्वार्टर को शामिल करते हुए राम सागर चौराहे से भदवासिया मुख्य सडक चलते हुए भदवासिया राजकीय अस्पताल होते हुए रेंगर शमशान तक का समस्त दायां भाग।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>भदवासिया पेट्रोल पम्प, संत रविदास कॉलोनी, बाबा रामदेव कॉलोनी, जटिया भाण्ड बस्ती, गालेश्वर महादेव मन्दिर, अशोक कॉलोनी, भदवासिया अस्पताल, आईमाता मन्दिर, रामसागर चौराहा, किर्ती नगर हुडकों क्वार्टर लक्ष्मीनारायण मन्दिर जोगमायामन्दिर।</p> <p>(नोट:उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं - (मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 92 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10986</p>	<p>सीमा</p> <p>भदवासिया स्कूल के आगे भदवासिया मैन रोड से रामसागर चौराहा होते हुए नृसिंहजी की प्याउ से माता का थान से पीएस गार्डन होते हुए नवाडा बेरा., मंदिरवाला बेरा को सम्मलित करते हुए रामचन्द्रजी के बेरा से 80 फिट सडक पर गांधी नगर प्याऊ होते हुए भदवासिया स्कूल पीछे से आरटीओ गैस गोदाम रोड से वापस दाये मुडकर भदवासिया मैन रोड तक का समस्त दायां भाग</p>

	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>जटिया कॉलोनी मन्दिर वाला बास, बिचला बास, परिहार नगर, बेरा वाला बास, गांधीनगर , कीर्तिनगर डी सेक्टर, राजीव गांधी कॉलोनी, चतुरावता पुलिया , चतुरावता बेरा, बापू नगर, बलदेवनगर, भादरवा बेरा, मान नगर, तारा नगर, नवोदा बेरा, मंदिर वाला बेरा, सीताराम नगर ।</p> <p>(नोट:उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं - (मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।</p>
<p>वार्ड 93 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 11645</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>भदवासिया स्कूल के पीछे 80 फुट रोड से आरटीओ गैस गौदाम वाली रोड पर 10 दुकान तक का बांया भाग लेते हुए गुलजार नगर प्रथम, संध्या स्कुल से सामुदायिक भवन के पास श्री हंसराजजी दाधीच के मकान के पीछे से मांगीलालजी की कृषि मार्ग होते हुए रामसागर वालों का परिहार कृषि फार्म की जमीन से चौधरी का कृषि फार्म की पालविद्यानगर) पाल होते हुए-, विष्णुनगर, वकीलों का हत्था, श्रीरामनगर के पीछे से श्रीरामनगर सोसायटी की चारदीवारी (, जो कृष्णा नगर की तरफ से होते हुए श्री राम नगर की मुख्य सडक का समस्त बायां भाग। श्रीरामनगर मुख्य सडक से मियाँ के बेरे होते हुए 80 फुट सडक का दोनों तरफ का भाग। 80 फुट रोड से सांखला कृषि फार्म से दौलत सागर कृषि फार्म से अमर नगर रोड से शिक्षित नगर रोड से पीएस गार्डन के पीछे से मुख्य माता का थान, तक का समस्त दायां भाग। नागौर बाई पास चौराहा माता का थान से पशु चिकित्सालय बासनी तम्बोलिया से आर्मी फाईरिंग रेन्ज तक का समस्त दायां भाग। गांधीनगर प्याउ 80 फिट रोड से भदवासिया स्कूल के पीछे तक का समस्त बायां भाग</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>विश्वकर्मा नगर पथम, द्वितीय, गुलजार नगर ए, बी, दधिमति नगर प्रथम द्वितीय, गोकुल धाम सोसायटी, गणेश नगर, गायत्री नगर, रिद्वि सिद्वि नगर, गुरु राजाराम नगर, रावत नगर पश्वनार्थ नगर, कृष्णा नगर, शिवसागर शिवाजी नगर, सज्जन नगर, मियाँ का बेरा, जयमल नगर, सांखला</p>

	<p>कृषि फार्म अमर नगर प्रथम, द्वितीय शिक्षक नगर पंचवटी कॉलोनी, हनुमान सागर बेरा, बासनी तम्बोलिया गांव, आर्मी फाईरिंग रेन्ज</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 94 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8325</p>	<p>सीमा</p> <p>रामसागर चौराहा से होते हुए नृसिंहजी की प्याऊ महाबल मॉल के पीछे सिंचाई विभाग की नहर होते हुए ज्योतिबा फूले स्कूल के पीछे बांध की मोरी से भोमियाजी के थान से होते हुए परिहारों की प्याऊ के आगे से नारायण पैलेस के सामने नई कॉलोनी में से (गणपतजी भाटी का पुराना बेरा) नागादडी के नाले के होते हुए शिवम पैलेस न्यू नागौर रोड शोर बालगृह से टांको गोकुलजी की प्याऊ से कि (हाते हुए सहारे अन्ना -का बास होते हुए वन विभाग की दीवार सहारे सागर की पाल से मेघवाल भील सभा भवन होते हुए अन्ना सागर गली नं .1 से होते हुए रामसागर चौराहा तक का समस्त बाँया भाग।</p> <p>क्षेत्र</p> <p>किर्ती नगर सेक्टर सी, मेघवाल बस्ती, भील बस्ती, नया बास, दर्जियों का बास, परिहारों का बास, सुथारों का बास, गहलोतों का बास, भाटियों का बास, टांको का बास, सांखला का बास, अन्नसागर गली नं .1, 2, 3, चैनपुरा बावडी हीरानगर, रामदेवनगर, कानियाला बेरा, चालावता बेरा, जमवाला बेरा।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 95 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 8895</p>	<p>सीमा</p> <p>चतुरावतों के पुलिये से होते हुए सिंचाई विभाग की नहर से ज्योतिबाई फूले स्कूल के पीछे बांध (सम्मलित करते हुए) तक, बांध की मोरी, भोमियाजी का थान, कुत्ता छत्री से परिहारों की प्याऊ, नारायण पैलेस के सामने सहनाई कॉलोनी गणपतजी भाटी का पुराना बेरा)रासे नागादडी नाला से होते ()हुए शिवम पैलेस न्यू नागौर रोड होते हुए}षिकेशन नगर सम्मलित करते हुएमण्डोर पुलिस थाना मैन नागौर रोड (बारली मण्डावता को सम्मलित) होते हुए मथानिया फांटा</p>

	<p>के सामने से रीकों इण्डट्रीयल एरिया से इच्छापूर्ण (करते हुए बालाजी से नारायण सागर बेरा, उजीर सागर बेरा, लाखावता बेरा होते हुए जसवंत सागर से पीएचईडी फिल्टर प्लांट से सुन्दरसिंह भण्डारी नगर से नागौर बाईपास रोड से पशु चिकित्सालय को रामदेव कॉलोनी व बासनी मालियान) से माता का थान चौराहा से चतुरावतों (सम्मिलित करते हुए को पुलिया तक का समस्तदायां भाग।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>बालाजी नगर, बावडी बेरा, रावला बेरा, खेडीवाला बेरा, बोडीवाला बेरा, हीराला बेरा, बोडीवाला जाव, खेडीवाला जाव, सालासर नगर, नारायण नगर, तिरूपति बालाजी नगर, रिद्वि सिद्वि नगर, जगदम्बा कॉलोनी माता का थान क्षेत्र, रामदेव नगर गली नं, 1,2,3,4 व 5 भील बस्ती, महादेव नगर, अभय नगर, भाखर बारा, पहाडिया बेरा, राईका बेरा, गोमाला बेरा, सुन्दरसिंह भण्डारी नगर, षिकेशन नगर, जालवाला बेरा, बहादुर नगर, चुतरोंजी का बेरा, मण्डोर थाने के पीछे का क्षेत्र जेडीए कॉलोनी व बारली मण्डावता, रिको इण्डट्रियल एरिया, चावडा होटल, तारासर बेरा के पीछे का क्षेत्र। (नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 96 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 9310</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>कृषि मण्डी चौराहे से भोमिया जी का थान होते हुए किशोर बाग अण्डर ब्रीज पुलिया होते हुए लालसागर रोड होते हुए आदर्श विद्या मन्दिर स्कुल से होते हुए गोकुलजी की प्याउ चौराहे तक का समस्त दायां भाग। (राईट)</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>किशोर बाग, भोमियाजी का थान, सोनालिका टैक्रटर के पीछे का क्षेत्र, पहाडगंज द्वितीय, चाणक्य नगर, हुडकों क्वार्टर, पाबू बस्ती, ब्रज बावडी क्षेत्र सीबीआई ऑफिस से गोकुलजी की प्याऊ तक का क्षेत्र। (नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>

<p>वार्ड 97 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 10841</p>	<p>सीमा</p> <p>आशुजी कि प्याऊ तिराहा नया पुरा रोड होते हुए सैटैलाईट अस्पताल, अमृतलाल स्टेडियम मायली मण्डावता चौराहा से ढाणी बेरा, कबीर नगर, सुखाला बेरा, एनएसयू के पीछे से होत हुए मण्डोर पुलिस थाना के पास पितारामजी का बाग से शिवम् पैलेस होते हुए गोकुलजी की प्याऊ लालसागर रोड से नयापुरा तिराहे तक का समस्त दायां भाग</p> <p>क्षेत्र</p> <p>नृसिंह विहार, ब्रदी विहार, दिलीप नगर, पुनित नगर, नयापुरा क्षेत्र, सैटैलाईट अस्पताल, अमृतलाल स्टेडियम के पीछे का क्षेत्र राढलावता बे (उपरली ढलावता), सुखाला बेरा, मायली मण्डावता, खोखरिया बेरा, ढाणा बेरा, बगता बेरा, बिलपत्र बेरा, ढलावता चैनपुरा, भनाला बेरा के खसरे, कमला नगर, दौलतसिंह नगर, बंशी विहार, चैनपुरा महेशनगर, पितारामजी की बाग, चतुरावता, राघव माधव नगर, भाणु नगर, नवाडो बेरा, पदाला बेरा।</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 98 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 6307</p>	<p>सीमा</p> <p>सिलवर आँक के आगे सरस्वती आईसक्रिम नया पुरा मैनरोड से होते हुए भानु बगला को सम्मिलित करते हुए अचलूराम कॉलोनी, पंचायत समिति, हलाव का बेरा से शंकर गाडन से नई सडक हंसलाव होते हुए (गहलोत मार्केट) फूलबाग नदी से फूलबाग चौराहा से राखी दडा पुलिया होते हुए रेलवे लाईन के सहारे गंगानगर, शुगर मील, ऑफिस के पास से रेलवे फाटक होते हुए मण्डोर रेलवे स्टेशन के आगे हनुमान वीर दल शाखा के पास से भील शमशान होते हुए निम्बा निमडी से निम्बडी मंदिर भोगी शैली रास्ते से बेरी गंगा से दईजर फाटक से सरदार पटेल पुलिस युनिवर्सिटी से मथानिया फांटा होते हुए 9 मील से 8 मील चुंगी नाका से एनएलयू बिजली घर होते हुए सुखाला बेरा मैन रोड होते हुए बक्ता बेरा पुलिये से नयापुरा मैनरोड होते हुए सिलवर आँक तक का समस्त दायां भाग</p>

	<p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>भाटी मार्केट के सामने वाली बस्ती, भानु बंगला, अचलूराम कॉलोनी, पंचायत समिति भवन, हलाव का बेरा, हंसलाव की पाल, भवाला बेरा, भियाली बेरा, गोपी बेरा, बडा बेरा, आमली बेरा, अमरपुरा, फतेहबाग, लाला बेरा, अमरपुरा, मेघवाल बस्ती, राखी दडा, मण्डोर स्टेशन , हनुमान वीर दल शाखा , नृसिंह कॉलोनी (हनुमान वीर दल शाखा के आगे), निम्बा निमडी, जोगियों की बस्ती, वृद्धाश्रम के पीछे, कुष्ठ आश्रम, ईन्दा फार्म, नटिया बस्ती, 8 मील, मण्डोर रेलवे स्टेशन, बेरी गंगा, नवोडा बेरा, 9 मील देवडा कृषि फार्म, राणोंजी का बाग, एन.यू.एल., कृषि केन्द्र, अम्बेडकर स्कूल एफडीडीआई, ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर, सरदार पटेल पुलिस युनिवर्सिटी, मथानिया फांटा, स्टोनपार्क, 9 मील मार्केट। (नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>
<p>वार्ड 99 नगर निगम जोधपुर कुल जनसंख्या 6722</p>	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>किशोर बाग अण्डर बंज से नयापुरा रोड होते हुए सिलवर ऑक के आगे सरस्वती आईसक्रिम नया पुरा मैनरोड से होते हुए भानु बगला को सम्मिलित नहीं करते हुए अचलूराम कॉलोनी, पंचायत समिति के पीछे से, हलाव का बेरा से शंकर गार्डन से नई सडक हंसलाव से फूलबाग (गहलोट मार्केट) नदी होते हुए फूलबाग चौराहा से राखी दडा बाबा रामदेव मन्दिर से होते हुए रेलवे लाईन के पास से होते हुए रेलवे फाटक से मण्डोर पोस्ट ऑफिस के सामने में होते हुए मण्डोर पेट्रोल पम्प के सामने में होते हुए मुख्य मण्डोर से होते हुए मामा भांजा दरगाह से होकर किशोर बागर अण्डर ब्रीज तक का समस्त बांया भाग।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>चक्रवाला बेरा, मोलुडा बेरा, सुख शान्ति नगर, हरिजन बस्ती, नागौरी बेरा, लाल बाग, सिमरथवाला बेरा, बडला वाला बेरा, फूलबाग, अम्बाला बेरा, भाभा कॉलोनी, नागौरी बेरा बिजली घर, ठाकुर वीरेन्द्र नगर, सिमरथवाला जाव, दादा बाडी, भलावता बेरा, अवतार कॉलोनी, देवडा कॉलोनी, लक्ष्मी ऐनकलव कॉलोनी, गणपति विहार, तीजा ऐनकलव (नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं</p>

	मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)
वार्ड 100 नगर निगम जोधपुर जनसंख्या 8749	<p style="text-align: center;">सीमा</p> <p>नरपत पेट्रोल पम्प से आरपीटीसी के सामने से मुख्य मण्डोर एनएस 65 से ओएनजीसी ऑफिस होते हुए मण्डोर उद्यान गेट नं .1 के आगे से मण्डोर रेलवे स्टेशन तक का बांया भाग पैतलाव)नाडी, गऊ घाटी, को शामिल करते हुए (.मण्डोर रेलवे स्टेशन से मण्डोर उद्यान गेट नं1 के आगे से (जूनी बस्ती व निर्माण कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए (मगजी की घाटी शामिल) पन्नालाल गौशाला के आगे से तन्हापीर दरगाह (करते हुए, मण्डोर गुफा, पंच कुण्डा को शामिल करते हुए बगाडी बेरा से बालसमंद घाटी होते हुए बेलदार बस्ती बालसमंद घाटी रेडार तक। बेलदार बस्ती से रॉयल्टी चौराहे होते हुए बालसमंद उद्यान से घोडा घाटी बालाजी मन्दिर को शामिल करते हुए एनएच 65 मुख्य मण्डोर रोड से नरपत पेट्रोल पम्प किशोर बाग तक का क्षेत्र।</p> <p style="text-align: center;">क्षेत्र</p> <p>किशोर बाग, नरपत पेट्रोल पम्प, मां भगवती कॉलोनी, नया बास बालसमंद, बालसमंद बगीचा, बडा बेरा, धडा बेरा, जोहरी नगर के आसपास का क्षेत्र, बेलदार बस्ती, बालसमंद, बगाडी बेरा, रॉयल्टी नाका, बालसमंद आदित्य नगर, महादेव नगर, मगजी की घाटी, निर्माण कॉलोनी, मण्डोर चौराहो, जूनी बस्ती, गऊघाटी, मण्डोर द्वितीय गेट, पेतलाव नाडी, सुसवाणी माता की गलियों आदी क्षेत्र</p> <p>(नोट:- उक्त सीमा में आने वाली समस्त गलीया एवं मोहल्ले इस वार्ड के क्षेत्र होंगे।)</p>

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।